

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 24—जनवरी 30, 2015 (माघ 4, 1936)

No. 4] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 24—JANUARY 30, 2015 (MAGHA 4, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I —खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित
अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by
the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 जनवरी 2015

थल सेना शाखा

सं. 10, दिनांक 30 दिसम्बर 2014—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारी को 01 सितंबर 2014 (पूर्वाह्न) से अपने निजी अधिकारी (स्टाफ) के रूप में नियुक्त करते हैं।

अवैतनिक सर्जन के पद पर

(क) लेफ्टिनेंट जनरल वी पी चतुर्वेदी, वीएसएम, डीजीएमएस (आर्मी)
(एमआर-04006वाई)

पवन कपूर

मेजर जनरल

अपर महानिदेशक स.से.चि.से.(मा.सं)

सेना सचिव शाखा

सं. 11, दिनांक 31 दिसम्बर 2014—महामहिम राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:-

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर जनरल के मूल रैंक में

क्रम संख्या	आई सी, रैंक, नाम व आर्म	मेजर जनरल के मूल रैंक की प्रभावी तिथि
1.	वी-00358, ए/मेजर जनरल पी एस नारवाल, आर वी सी	03.04.13

ब्रिगेडियर के मूल रैंक में

क्रम संख्या	आई सी, रैंक, नाम व आर्म	ब्रिगेडियर के मूल रैंक की प्रभावी तिथि
1.	वी-00359 ए/ ब्रिग. ए जे सिंह, आर वी सी	01.05.12
2.	वी-00372 ए/ब्रिग. जे एस धर्माधरन, आर वी सी	01.07.12
3.	वी-00383 ए/ ब्रिग. देव राज, आर वी सी	01.07.12
4.	वी-00373 ए/ब्रिग. एम ए केलकर, आर वी सी	25.01.13
5.	वी-00391 ए/ ब्रिग. पी आर वेंकटेश, आर वी सी	15.04.13
6.	आई सी-39027 ए/ब्रिग. जे पी एस महला, एमएफ	01.07.11
7.	आई सी-41041 ए/ब्रिग. पूनम बाली, एम एफ	27.08.14

पी के पटनायक
उप सेना सचिव एम एस (एक्स)

सं. 12, दिनांक 1 जनवरी 2015—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नियुक्तियां/पदोन्नतियां करते हैं :-

नियमित सेना विभाग

इन्फैन्ट्री

सिख लाइट इन्फैन्ट्री

सूबेदार मेजर (जी0 डी0) के रैंक में

पद	नाम	व्यक्तिगत संख्या	दिनांक	
			पदोन्नति	वरिष्ठता
सूबेदार	निर्मल सिंह	जेसी-509303 वाई	01 जून 2013	01 जून 2013
सूबेदार	बिक्कर सिंह	जेसी-509035 ए	01 जून 2013	01 जून 2013
सूबेदार	मुखतार सिंह	जेसी-509202 एल	02 जुलाई 2013	01 जुलाई 2013
सूबेदार	बावा सिंह	जेसी-509045 के	01 अगस्त 2013	01 अगस्त 2013
सूबेदार	बलजीत सिंह	जेसी-509201 एच	01 सितम्बर 2013	01 सितम्बर 2013
सूबेदार	केवल सिंह	जेसी-509161 एम	01 अक्टूबर 2013	01 अक्टूबर 2013
सूबेदार	करम सिंह	जेसी-509305 के	01 नवम्बर 2013	01 नवम्बर 2013
सूबेदार	अमरजीत सिंह	जेसी-509412 एल	01 नवम्बर 2013	01 नवम्बर 2013
सूबेदार	जयपाल सिंह	जेसी-509377 एन	02 दिसम्बर 2013	01 दिसम्बर 2013
सूबेदार	हाकम सिंह	जेसी-509183 एल	01 दिसम्बर 2013	01 दिसम्बर 2013
सूबेदार	रघबीर सिंह	जेसी-509459 डब्ल्यू	01 जनवरी 2014	01 जनवरी 2014
सूबेदार	गुरुजीत सिंह	जेसी-509236 वाई	01 जनवरी 2014	01 जनवरी 2014
सूबेदार	हरी सिंह, सेना मैडल	जेसी-509190 एफ	01 जनवरी 2014	01 जनवरी 2014
सूबेदार	सलिनन्दरपाल सिंह	जेसी-508930 वाई	04 मई 2014	01 मई 2014
सूबेदार	गुरमीत सिंह	जेसी-509114 पी	01 मई 2014	01 मई 2014
सूबेदार	सलविन्दर सिंह	जेसी-509447 एफ	01 जून 2014	01 जून 2014
सूबेदार	अवतार सिंह	जेसी-509153 एन	01 जुलाई 2014	01 जुलाई 2014

सूबेदार	निर्मल सिंह	जेसी-509396 वाई	01 अगस्त 2014	01 अगस्त 2014
सूबेदार	हरदीप सिंह	जेसी-509179 एच	01 सितम्बर 2014	01 सितम्बर 2014
सूबेदार	पाल सिंह	जेसी-509505 ए	01 सितम्बर 2014	01 सितम्बर 2014
सूबेदार	दिलबाग सिंह	जेसी-509514 एफ	01 सितम्बर 2014	01 सितम्बर 2014
सूबेदार	लखा सिंह	जेसी-509475 एन	01 अक्टूबर 2014	01 अक्टूबर 2014
सूबेदार	सुखदेव सिंह	जेसी-509532 के	01 नवम्बर 2014	01 नवम्बर 2014
सूबेदार	ओंकार सिंह	जेसी-509543 डब्ल्यू	01 नवम्बर 2014	01 नवम्बर 2014

सूबेदार मेजर (क्लर्क) एस0 डी0 के रैंक में

सूबेदार (क्लर्क)	वजीर सिंह	जेसी-509090 डब्ल्यू	01 सितम्बर 2013	01 सितम्बर 2013
सूबेदार (क्लर्क)	अजय कुमार यादव	जेसी-509177 एक्स	04 अक्टूबर 2013	01 अक्टूबर 2013
सूबेदार (क्लर्क)	भागीरथी नायक	जेसी-509083 ए	02 जून 2014	01 जून 2014
सूबेदार (क्लर्क)	राजेन्द्रा यादवा	जेसी-509249 डब्ल्यू	05 अगस्त 2014	11 जुलाई 2014

सूबेदार मेजर (आर टी) के रैंक में

सूबेदार (आर टी)	बलविन्दर सिंह	जेसी-220851 एक्स	01 अगस्त 2014	01 अगस्त 2014
-----------------	---------------	------------------	---------------	---------------

सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में

पद	नाम	व्यक्तिगत संख्या	पदोन्नति
नायब सूबेदार	रंजीत सिंह	जे सी-510005 पी	11 जनवरी 2013
नायब सूबेदार	स्वर्ण सिंह	जे सी-510006 एक्स	01 फरवरी 2013
नायब सूबेदार	हरमेल सिंह	जे सी-510137 एच	01 फरवरी 2013
नायब सूबेदार	तेजिंदर सिंह	जे सी-510138 एल	01 फरवरी 2013
नायब सूबेदार	गुरदीप सिंह	जे सी-510139 एन	01 फरवरी 2013
नायब सूबेदार	बेअंत सिंह	जे सी-509649 एच	01 मार्च 2013
नायब सूबेदार	सतनाम सिंह	जे सी-509955 एक्स	01 मार्च 2013
नायब सूबेदार	भोला सिंह	जे सी-509956 ए	01 मार्च 2013
नायब सूबेदार	बलबीर सिंह	जे सी-510140 एच	01 मार्च 2013
नायब सूबेदार	हरभजन सिंह	जे सी-510145 एफ	01 मार्च 2013
नायब सूबेदार	बहादुर सिंह	जे सी-510157 डब्ल्यू	01 मार्च 2013
नायब सूबेदार	कुलविन्दर सिंह	जे सी-509959 एन	05 मार्च 2013
नायब सूबेदार	मुकन्द सिंह	जे सी-509722 डब्ल्यू	01 अप्रैल 2013
नायब सूबेदार	गुरदीप सिंह	जे सी-509759 एक्स	01 अप्रैल 2013
नायब सूबेदार	बहादुर सिंह	जे सी-509911 ए	01 अप्रैल 2013
नायब सूबेदार	मनिन्दर सिंह	जे सी-509938 एक्स	01 अप्रैल 2013
नायब सूबेदार	बूटा सिंह	जे सी-510002 एफ	01 अप्रैल 2013
नायब सूबेदार	रणधीर सिंह	जे सी-510027 एन	01 अप्रैल 2013
नायब सूबेदार	अमरीक सिंह	जे सी-509982 एफ	01 मई 2013

नायब सूबेदार	बलवंत सिंह	जे सी-509983 के	01 मई 2013
नायब सूबेदार	जसवंत सिंह	जे सी-509798 डब्ल्यू	01 जून 2013
नायब सूबेदार	जसबीर सिंह	जे सी-509948 एफ	01 जून 2013
नायब सूबेदार	इकबाल सिंह	जे सी-509957 एच	01 जून 2013
नायब सूबेदार	सुरिन्दर सिंह	जे सी-509966 के	01 जून 2013
नायब सूबेदार	मोहन सिंह	जे सी-510159 एफ	01 जून 2013
नायब सूबेदार	शमशेर सिंह	जे सी-510169 एल	01 जून 2013
नायब सूबेदार	विजय कुमार	जे सी-510173 एन	01 जून 2013
नायब सूबेदार	तरसेम सिंह	जे सी-510178 एम	01 जून 2013
नायब सूबेदार	जसपाल सिंह	जे सी-510180 के	01 जून 2013
नायब सूबेदार	हीरा सिंह	जे सी-510181 एम	01 जून 2013
नायब सूबेदार	मलकीत सिंह	जे सी-510183 एक्स	01 जून 2013
नायब सूबेदार	बलजीत सिंह	जे सी-510191 डब्ल्यू	01 जून 2013
नायब सूबेदार	कमलजीत सिंह	जे सी-510193 एफ	01 जून 2013
नायब सूबेदार	कुलवंत सिंह	जे सी-510198 ए	01 जून 2013
नायब सूबेदार	होशियार सिंह	जे सी-509856 पी	25 जून 2013
नायब सूबेदार	राम लाल सिंह	जे सी-509850 एन	01 जुलाई 2013
नायब सूबेदार	बलविंदर सिंह	जे सी-509853 एफ	01 जुलाई 2013
नायब सूबेदार	करमजीत सिंह	जे सी-509879 डब्ल्यू	01 जुलाई 2013
नायब सूबेदार	रंजीत सिंह	जे सी-509884 एफ	01 जुलाई 2013
नायब सूबेदार	दीदार सिंह	जे सी-509892 ए	22 जुलाई 2013
नायब सूबेदार	केशर सिंह	जे सी-509968 पी	22 जुलाई 2013
नायब सूबेदार	सर्वजीत सिंह	जे सी-509967 एम	05 अगस्त 2013
नायब सूबेदार	जसविन्दर सिंह	जे सी-509993 एन	05 अगस्त 2013
नायब सूबेदार	गुरमुख सिंह	जे सी-509960 एच	01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	बलविन्दर सिंह	जे सी-509988 एच	01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	रंजीत सिंह	जे सी-509999 पी	01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	सिकन्दर सिंह	जे सी-510199 एच	01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	सुरिन्दर सिंह	जे सी-510194 के	20 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	बलजिन्दर सिंह	जे सी-510206 एन	24 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	बलविन्दर सिंह	जे सी-509859 एच	29 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	जीत सिंह	जे सी-509857 एक्स	01 अक्टूबर 2013
नायब सूबेदार	जसपाल सिंह	जे सी-510162 एफ	01 अक्टूबर 2013
नायब सूबेदार	स्वर्ण सिंह	जे सी-510172 ए	09 अक्टूबर 2013
नायब सूबेदार	बवित्तर सिंह	जे सी-510073 एच	09 अक्टूबर 2013
नायब सूबेदार	जगसीर सिंह	जे सी-510075 एन	20 अक्टूबर 2013

नायब सूबेदार	बलवंत सिंह	जे सी-509905 एम	01 नवम्बर 2013
नायब सूबेदार	चरनजीत सिंह	जे सी-509961 एल	01 नवम्बर 2013
नायब सूबेदार	बलविन्दर सिंह	जे सी-510000 डब्ल्यू	01 नवम्बर 2013
नायब सूबेदार	जगजोध सिंह	जे सी-510001 वाई	01 नवम्बर 2013
नायब सूबेदार	रूप सिंह	जे सी-510044 एन	01 नवम्बर 2013
नायब सूबेदार	सतनाम सिंह	जे सी-510045 डब्ल्यू	01 नवम्बर 2013
नायब सूबेदार	चरनजीत सिंह	जे सी-510061 एन	01 नवम्बर 2013
नायब सूबेदार	राजिन्दर सिंह	जे सी-510210 डब्ल्यू	01 नवम्बर 2013
नायब सूबेदार	गुरदित्त सिंह	जे सी-510222 एल	01 नवम्बर 2013
नायब सूबेदार	लखबीर सिंह	जे सी-510274 एफ	01 नवम्बर 2013
नायब सूबेदार	मनजिन्दर सिंह	जे सी-510077 वाई	11 नवम्बर 2013
नायब सूबेदार	जगरूप सिंह	जे सी-509726 एम	01 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार	सुखविन्दर सिंह	जे सी-509903 एफ	01 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार	सर्वजीत सिंह	जे सी-509915 डब्ल्यू	01 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार	राज राजिन्दर सिंह	जे सी-509991 एच	01 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार	जरनैल सिंह	जे सी-510003 के	01 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार	सुखदेव सिंह	जे सी-510085 एक्स	01 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार	साहिब सिंह	जे सी-510086 ए	01 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार	परमजीत सिंह	जे सी-510121 एक्स	01 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार	मन्सा सिंह मट्टू	जे सी-510124 एल	01 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार	गुरदेव सिंह	जे सी-510004 एम	06 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार	हरदियाल सिंह	जे सी-509792 पी	08 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार	बल्देव सिंह	जे सी-509917 एफ	08 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार	मेहल सिंह	जे सी-509812 एक्स	08 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार	जोगिन्दर सिंह	जे सी-510276 एम	16 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार	जगदेव सिंह	जे सी-509841 एम	19 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार	कुलदीप सिंह	जे सी-509992 एल	21 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार	जसविन्दर सिंह	जे सी-509776 एक्स	01 जनवरी 2014
नायब सूबेदार	लखबीर सिंह	जे सी-509800 एच	01 जनवरी 2014
नायब सूबेदार	जसपाल सिंह	जे सी-509918 के	01 जनवरी 2014
नायब सूबेदार	मुख्तियार सिंह	जे सी-509950 वाई	01 जनवरी 2014
नायब सूबेदार	रोशन सिंह	जे सी-509964 वाई	01 जनवरी 2014
नायब सूबेदार	जोगिन्दर सिंह	जे सी-509972 एक्स	01 जनवरी 2014
नायब सूबेदार	निर्मल सिंह	जे सी-509974 एच	01 जनवरी 2014
नायब सूबेदार	हरजिन्दर सिंह	जे सी-509975 एल	01 जनवरी 2014
नायब सूबेदार	पंजाब सिंह	जे सी-509976 एन	01 जनवरी 2014

नायब सूबेदार	मंगल सिंह	जे सी-509978 वाई	01 जनवरी 2014
नायब सूबेदार	निर्मय सिंह	जे सी-509985 पी	01 जनवरी 2014
नायब सूबेदार	हरभजन सिंह	जे सी-509996 एफ	01 जनवरी 2014
नायब सूबेदार	गुरप्यार सिंह	जे सी-510026 एल	01 जनवरी 2014
नायब सूबेदार	अमरप्रीत सिंह	जे सी-510135 एक्स	01 जनवरी 2014
नायब सूबेदार	सुभाष सिंह	जे सी-510062 डब्ल्यू	01 जनवरी 2014
नायब सूबेदार	सिंगारा सिंह	जे सी-510032 वाई	01 जनवरी 2014
नायब सूबेदार	लखा सिंह	जे सी-510033 एफ	01 जनवरी 2014
नायब सूबेदार	गुरमुख सिंह	जे सी-510179 पी	01 जनवरी 2014
नायब सूबेदार	गुरचरन सिंह सीनमार	जे सी-510017 के	10 जनवरी 2014
नायब सूबेदार	जसवंत सिंह	जे सी-510064 एफ	23 जनवरी 2014
नायब सूबेदार	हरजिन्दर सिंह	जे सी-509994 डब्ल्यू	01 फरवरी 2014
नायब सूबेदार	हरजिन्दर सिंह	जे सी-510018 एम	01 फरवरी 2014
नायब सूबेदार	लखबीर सिंह	जे सी-510076 डब्ल्यू	01 फरवरी 2014
नायब सूबेदार	लाभ सिंह	जे सी-510214 एम	01 फरवरी 2014
नायब सूबेदार	भजन सिंह	जे सी-510215 पी	01 फरवरी 2014
नायब सूबेदार	कुलदीप सिंह	जे सी-510172 एल	01 फरवरी 2014
नायब सूबेदार	सुखमिन्दर सिंह	जे सी-510255 डब्ल्यू	01 फरवरी 2014
नायब सूबेदार	मित्तरपाल सिंह	जे सी-510256 वाई	01 फरवरी 2014
नायब सूबेदार	सुखविन्दर सिंह	जे सी-510230 के	05 फरवरी 2014
नायब सूबेदार	नाथा सिंह	जे सी-510048 के	07 फरवरी 2014
नायब सूबेदार	जीवा सिंह	जे सी-510068 एक्स	13 फरवरी 2014
नायब सूबेदार	बलकार सिंह	जे सी-509818 वाई	01 मार्च 2014
नायब सूबेदार	गुरनाम सिंह	जे सी-509829 एल	01 मार्च 2014
नायब सूबेदार	मंजीत सिंह	जे सी-509833 एन	01 मार्च 2014
नायब सूबेदार	जसवीर सिंह	जे सी-509876 एच	01 मार्च 2014
नायब सूबेदार	सिंगारा सिंह	जे सी-509986 एक्स	01 मार्च 2014
नायब सूबेदार	राजिन्दर सिंह	जे सी-509997 के	01 मार्च 2014
नायब सूबेदार	सतनाम सिंह	जे सी-510067 पी	01 मार्च 2014
नायब सूबेदार	अमरजीत सिंह	जे सी-510234 ए	01 मार्च 2014
नायब सूबेदार	चमकौर सिंह	जे सी-510247 एक्स	01 मार्च 2014
नायब सूबेदार	नरिन्दर सिंह	जे सी-510263 पी	01 मार्च 2014
नायब सूबेदार	जसपाल सिंह	जे सी-509990 ए	31 मार्च 2014
नायब सूबेदार	कश्मीर सिंह	जे सी-509875 ए	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	राज सिंह	जे सी-509877 एल	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	संतोष सिंह	जे सी-509906 पी	01 अप्रैल 2014

नायब सूबेदार	प्रेम सिंह	जे सी-509914 एन	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	नरिन्दर सिंह	जे सी-509923 पी	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	सतनाम सिंह	जे सी-509925 ए	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	मंजीत सिंह सिंघू	जे सी-509929 डब्ल्यू	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	तरसेम सिंह	जे सी-509930 एल	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	बचित्तर सिंह	जे सी-509934 एफ	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	बिकर सिंह	जे सी-509980 डब्ल्यू	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	भगवंत सिंह	जे सी-509989 एल	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	शिवराज सिंह	जे सी-509995 वाई	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	गुरमीत सिंह	जे सी-509998 एम	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	जोगा सिंह	जे सी-510007 ए	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	बलविन्दर सिंह	जे सी-510016 एफ	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	जसपाल सिंह	जे सी-510019 पी	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	कुलदीप सिंह	जे सी-510049 एम	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	लाल सिंह	जे सी-510050 एफ	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	कुलविन्दर सिंह	जे सी-510052 एम	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	जसवीर सिंह	जे सी-510053 पी	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	कुलदीप सिंह	जे सी-510056 एच	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	मोहिन्दर सिंह	जे सी-510057 एल	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	जगसीर सिंह	जे सी-510069 ए	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	गुरमेल सिंह	जे सी-510070 पी	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	कमलजीत सिंह	जे सी-510084 पी	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	जगदीश सिंह	जे सी-510106 एच	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	बलबीर सिंह जस्सल	जे सी-510107 एल	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	बखसीस सिंह	जे सी-510131 एफ	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	दलबीर सिंह	जे सी-510153 ए	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	सुरजीत सिंह	जे सी-510167 ए	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	केवल सिंह	जे सी-510170 ए	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	अवतार सिंह	जे सी-510176 एफ	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	जगतार सिंह	जे सी-510186 एल	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	जगदीश सिंह	जे सी-510189 वाई	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	हंशा सिंह	जे सी-510204 एच	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	परविन्दर सिंह	जे सी-510213 के	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	चुहर सिंह	जे सी-510218 एच	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	बलविन्दर सिंह	जे सी-510235 एच	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	दलबीर सिंह	जे सी-510238 डब्ल्यू	01 अप्रैल 2014

नायब सूबेदार	गुरनाम सिंह	जे सी-510242 वाई	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	रंजोध सिंह	जे सी-510248 ए	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	करम सिंह	जे सी-510249 एच	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	परमजीत सिंह	जे सी-510264 एक्स	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	कश्मीर सिंह	जे सी-510282 ए	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	तरसेम सिंह	जे सी-510284 एल	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	परशोत्तम सिंह	जे सी-510009 एल	04 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	कुलवंत सिंह	जे सी-510345 एक्स	22 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	सुखा सिंह	जे सी-510079 के	01 मई 2014
नायब सूबेदार	बलजीत सिंह	जे सी-510357 एम	15 मई 2014
नायब सूबेदार	कुलविन्दर सिंह	जे सी-510308 के	01 जून 2014
नायब सूबेदार	हरमेल सिंह	जे सी-510353 डब्ल्यू	01 जून 2014
नायब सूबेदार	गुरदीप सिंह	जे सी-510354 वाई	01 जून 2014
नायब सूबेदार	सतपाल सिंह	जे सी-510382 एल	01 जून 2014
नायब सूबेदार	मलकीत सिंह	जे सी-510008 एच	24 जून 2014
नायब सूबेदार	सोहन सिंह	जे सी-510260 एफ	24 जून 2014
नायब सूबेदार	जगजीत सिंह	जे सी-510283 एच	24 जून 2014
नायब सूबेदार	अवतार सिंह, एस0 एम0	जे सी-510318 एन	24 जून 2014
नायब सूबेदार	हरजीत सिंह	जे सी-510336 डब्ल्यू	24 जून 2014
नायब सूबेदार	गुरमेल सिंह	जे सी-510390 के	24 जून 2014
नायब सूबेदार	संतोष सिंह	जे सी-510402 एन	24 जून 2014
नायब सूबेदार	परकाश सिंह	जे सी-510407 एम	24 जून 2014
नायब सूबेदार	लखबीर सिंह	जे सी-510275 के	08 जुलाई 2014
नायब सूबेदार	राम सिंह	जे सी-510418 वाई	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार	चमकौर सिंह	जे सी-510020 के	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार	नचत्तर सिंह	जे सी-510078 एफ	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार	हरजीत सिंह	जे सी-510080 वाई	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार	बलवंत सिंह	जे सी-510216 एक्स	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार	केवल सिंह	जे सी-510022 पी	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार	केशर सिंह	जे सी-510029 वाई	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार	बलकार सिंह	जे सी-510420 डब्ल्यू	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार	सुरजीत सिंह	जे सी-510424 एम	10 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार	पूरन सिंह	जे सी-509940 पी	20 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार	सर्बजीत सिंह	जे सी-510328 एक्स	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार	जगमोहन सिंह	जे सी-510279 ए	03 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार	रघबीर सिंह	जे सी-510099 एक्स	01 नवम्बर 2014

नायब सूबेदार	बिक्रम सिंह	जे सी-510104 एक्स	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार	बलविन्दर सिंह	जे सी-510010 ए	11 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार	कुलविंदर सिंह	जे सी-510363 ए	01 दिसम्बर 2014

सूबेदार (क्लर्क) एस0 डी0 के रैंक में

नायब सूबेदार (क्लर्क)	अशोक कुमार	जे सी-509897 वाई	01 जून 2013
नायब सूबेदार (क्लर्क)	राजेश कुमार मिश्रा	जे सी-509898 एफ	01 जून 2013
नायब सूबेदार (क्लर्क)	विजय कुमार द्विवेदी	जे सी-509924 एक्स	01 जून 2013
नायब सूबेदार (क्लर्क)	वी गोविन्दा राजू	जे सी-509724 एफ	25 जून 2013
नायब सूबेदार (क्लर्क)	नारेन्द्रा सिंह	जे सी-509935 के	01 अगस्त 2013
नायब सूबेदार (क्लर्क)	जयबीर सिंह	जे सी-509944 एल	01 अगस्त 2013
नायब सूबेदार (क्लर्क)	दिनेश कुमार सेन	जे सी-509945 एन	01 अगस्त 2013
नायब सूबेदार (क्लर्क)	पट्टन के आर टी खान	जे सी-509946 डब्ल्यू	01 अगस्त 2013
नायब सूबेदार (क्लर्क)	बाबू लाल गुर्जर	जे सी-510030 एन	01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार (क्लर्क)	अनिल कुमार सिंह	जे सी-510031 डब्ल्यू	01 अक्टूबर 2013
नायब सूबेदार (क्लर्क)	राम दयाल यादव	जे सी-510035 एम	01 नवम्बर 2013
नायब सूबेदार (क्लर्क)	सीता राम चोपड़ा	जे सी-510036 पी	01 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार (क्लर्क)	देशमुख अरविन्द शिवाजी	जे सी-510058 एन	01 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार (क्लर्क)	सुर्जा नारायण पानीग्राही	जे सी-510065 के	01 मार्च 2014
नायब सूबेदार (क्लर्क)	सत्य प्रकाश सिंह	जे सी-510071 एक्स	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार (क्लर्क)	नरसिंघा पाधी	जे सी-510108 एन	01 मई 2014
नायब सूबेदार (क्लर्क)	महेन्दर सिंह मान	जे सी-510114 एफ	01 जून 2014
नायब सूबेदार (क्लर्क)	सतपाल सिंह	जे सी-510115 के	01 जुलाई 2014
नायब सूबेदार (क्लर्क)	भुपेन्द्रा सिंह चौहान	जे सी-510116 एम	01 जुलाई 2014
नायब सूबेदार (क्लर्क)	जाधव विलास इस्वारा	जे सी-510132 के	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार (क्लर्क)	पाटिल आनन्दराव वसन्तराव	जे सी-510134 पी	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार (क्लर्क)	पाटिल विजयकुमार गुण्डा	जे सी-510146 के	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार (क्लर्क)	श्यामराज सिंह राणा	जे सी-510168 एच	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार (क्लर्क)	नाबा किशोर कुनार	जे सी-510174 डब्ल्यू	01 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार (क्लर्क)	राजेश ए एन भट्ट	जे सी-510175 वाई	01 दिसम्बर 2014

सिख रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार दलविंदर सिंह, एस एम

(जे सी 499432एच)

01 जुलाई 2014

सूबेदार गुरनाम सिंह

(जे सी 499427एक्स)

01 अगस्त 2014

सूबेदार मेजर लिपिक के रैंक में

सूबेदार लिपिक पलविंदर सिंह

(जे सी 499670पी)

07 जुलाई 2014

सूबेदार मेजर लिपिक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार हरमेश सिंह	(जे सी 500440डब्ल्यू)	16 जून 2014
सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 अप्रैल 2014		
नायब सूबेदार गुरमेल सिंह	(जे सी 500185पी)	20 अगस्त 2014
सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014		
नायब सूबेदार सतपाल सिंह	(जे सी 500243एन)	25 अगस्त 2014
सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014		
नायब सूबेदार कुलवंत सिंह	(जे सी 500247के)	19 अगस्त 2014
सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014		
नायब सूबेदार बलजीत सिंह	(जे सी 500291एन)	01 जुलाई 2014
नायब सूबेदार जसवीर सिंह	(जे सी 500316पी)	01 जुलाई 2014
नायब सूबेदार भगवंत सिंह	(जे सी 500339डब्ल्यू)	01 जुलाई 2014
नायब सूबेदार मेजर सिंह	(जे सी 500360वाई)	01 जुलाई 2014
नायब सूबेदार कवलजीत सिंह	(जे सी 500361एफ)	01 जुलाई 2014
नायब सूबेदार परमजीत सिंह	(जे सी 500369एन)	01 जुलाई 2014
नायब सूबेदार लखविन्दर सिंह	(जे सी 500380एम)	01 जुलाई 2014
नायब सूबेदार गुरमीत सिंह	(जे सी 500381पी)	01 जुलाई 2014
नायब सूबेदार सवरनजीत सिंह	(जे सी 500448एच)	01 जुलाई 2014
नायब सूबेदार गुरवेल सिंह	(जे सी 500467एन)	22 अगस्त 2014
सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014		

सूबेदार लिपिक के रैंक में

नायब सूबेदार लिपिक गुलाब सिंह	(जे सी 500241एच)	01 जुलाई 2014
नायब सूबेदार लिपिक सतेन्दर सिंह	(जे सी 500261डब्ल्यू)	01 जुलाई 2014
नायब सूबेदार लिपिक दर्शन लाल	(जे सी 500319एच)	12 जुलाई 2014
सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014		

पैराशूट रेजिमेंट सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार	संतोष बी	(जेसी-413522एच)	01 जून 2014
नायब सूबेदार	राज कुमार शर्मा	(जेसी-413535ए)	08 जून 2014
नायब सूबेदार	बाब्लुई आर मार्क	(जेसी-413536एच)	01 जुलाई 2014
नायब सूबेदार	जी जीबानासबारा रेडडी	(जेसी-413562के)	17 अगस्त 2014
नायब सूबेदार	मित्रा लाल बुधा	(जेसी-413542डब्ल्यू)	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार	मंगल सिंह	(जेसी-413473एल)	01 फरवरी 2014
नायब सूबेदार	दयाल सिंह रावत	(जेसी-413481के)	21 मार्च 2014
नायब सूबेदार	बिरेद्रा सिंह	(जेसी-413546एम)	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	कैलाश चंद्रा	(जेसी-413532एम)	01 अप्रैल 2014

नायब सूबेदार	अनुप सिंह	(जेसी-413588वाई)	01 मई 2014
नायब सूबेदार	सुरेश चन्द	(जेसी-413428वाई)	01 फरवरी 2014
नायब सूबेदार	मनबीर सिंह	(जेसी-413426एन)	01 फरवरी 2014
नायब सूबेदार	लक्ष्मी नारायण	(जेसी-413427डब्ल्यू)	01 फरवरी 2014
नायब सूबेदार	सुरेश सिंह	(जेसी-413432एफ)	01 जून 2014
नायब सूबेदार	रंधीर सिंह	(जेसी-413433के)	01 जून 2014
नायब सूबेदार	बस्ती राम बिस्नोई	(जेसी-413450के)	05 जून 2014
नायब सूबेदार	तरसेम सिंह	(जेसी-413451एम)	05 जून 2014
नायब सूबेदार	मनोहर सिंह	(जेसी-413475डब्ल्यू)	05 जून 2014
नायब सूबेदार	राधे सिंह	(जेसी-413489डब्ल्यू)	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार	रजीत सिंह	(जेसी-413474एन)	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	बिलाश कुमार	(जेसी-413488एन)	02 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	मोहम्मद अनीफ, एस एम	(जेसी-413497पी)	03 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	कृष्ण कुमार	(जेसी-413287पी)	01 मार्च 2014
नायब सूबेदार	पदम राज राय	(जेसी-413328एन)	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	केशव सिंह	(जेसी-413484एक्स)	01 जून 2014
नायब सूबेदार	कमलेश बहादुर सिंह	(जेसी-413485ए)	01 जून 2014
नायब सूबेदार	तेज सिंह	(जेसी-413524एन)	01 जून 2014
नायब सूबेदार	सुरेंद्र सिंह	(जेसी-413568एल)	12 जुलाई 2014
नायब सूबेदार	जावान सिंह	(जेसी-413559के)	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार	योगेन्द्र सिंह	(जेसी-413560वाई)	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार	धनपति शा	(जेसी-413413डब्ल्यू)	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	प्रशान्ता कुमार पान्डा	(जेसी-413429एफ)	01 मई 2014
नायब सूबेदार	राकेश कुमार	(जेसी-413422एक्स)	07 मई 2014
नायब सूबेदार	हेमंत कुमार थापा	(जेसी-413626के)	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	जगत सिंह वीरा	(जेसी-41364डब्ल्यू)	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	धर्म सिंह	(जेसी-413641वाई)	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार	कुंदन सिंह रावत	(जेसी-413658एम)	01 मई 2014
नायब सूबेदार	थोरात संजय वावन	(जेसी-413269एम)	01 जनवरी 2014
नायब सूबेदार	जयाराम नायक	(जेसी-413288एक्स)	08 जनवरी 2014

नायब सूबेदार	गायकवाड मदन वालासाहिब	(जेसी-413555एक्स)	01 मई 2014
नायब सूबेदार	मंजुनाथा एच जे	(जेसी-413385पी)	01 मई 2014
नायब सूबेदार	कृष्णा कोलाजी गऊडा	(जेसी-413443एन)	07 मई 2014
नायब सूबेदार	चाबारे लक्ष्मण काशीराम	(जेसी-413447के)	01 जून 2014
नायब सूबेदार	कोकित्कर रामु जोतिबा	(जेसी-413452पी)	01 जुलाई 2014
नायब सूबेदार	हरी ए आर, एस एम	(जेसी-413465एम)	01 सितम्बर 2014

महार रेजिमेंट

सूबेदार मेंजर (लिपिक) के रैंक में

सूबेदार लिपिक	देस राज	जे. सी. 569569 पी	01 फरवरी 2013
सूबेदार लिपिक	नरेश बाबु	जे. सी. 569666एम	03 अगस्त 2013*

* (सूबेदार मेंजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2013 से दी जायेगी)

सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार लिपिक	दायमा राजेश सुभाष चंद्रा	जे. सी. 570413के	01 फरवरी 2013
नायब सूबेदार लिपिक	नंद गणेश	जे. सी. 570414एम	05 फरवरी 2013*

* (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2013 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार लिपिक	वी श्रबनन	जे. सी. 570415पी	01 अप्रैल 2013
नायब सूबेदार लिपिक	जे क्रुज सहायराज	जे. सी. 570489के	01 अप्रैल 2013
नायब सूबेदार लिपिक	विनोद कुमार सिंह	जे. सी. 570495एक्स	06 मई 2013#
नायब सूबेदार लिपिक	सुधांशु कुमार जेना	जे. सी. 570517एल	28 जून 2013#
नायब सूबेदार लिपिक	सतीश कुमार टी	जे. सी. 570539के	17 जून 2013#

#(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2013 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार लिपिक	कोशल कुमार सिंह	जे. सी. 570500एक्स	02 जुलाई 2013\$
--------------------	-----------------	--------------------	-----------------

\$(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2013 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार लिपिक	राज किशोर सिंह	जे. सी. 570540वाई	10 जुलाई 2013@
नायब सूबेदार लिपिक	अरुण कुमार सिंह	जे. सी. 570565एल	22 जुलाई 2013@
नायब सूबेदार लिपिक	कुंवर पाल सिंह	जे. सी. 570563ए	23 जुलाई 2013@

@(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2013 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार लिपिक	संजीव दाम	जे. सी. 570590के	01 अगस्त 2013
--------------------	-----------	------------------	---------------

मराठा लाईट इन्फैन्ट्री

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार	मोरे मनोहर शंकर	(सं. 4073408ए अब जेसी-460827एन)	02 सितम्बर 2014*
--------	-----------------	---------------------------------	------------------

* नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2013 से दी जाती है।

हवलदार	सुधीर हलसकर	(सं. 2790931एफ अब जेसी-460828डब्ल्यू)	05 मार्च 2014*
--------	-------------	---------------------------------------	----------------

* नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2013 से दी जाती है।

हवलदार	सुतार सतीश शिवाजी	(सं. 2790356एल अब जेसी-460829वाई)	06 जून 2014*
--------	-------------------	-----------------------------------	--------------

* नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2014 से दी जाती है।

हवलदार	गायकवाड शंकर केशव (सं. 2790631ए अब जेसी-460830एन) * नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2014 से दी जाती हैं।	06 जून 2014*
हवलदार	भोरडे सोमनाथ पंडरीनाथ (सं. 2792478एन अब जेसी-460831डब्ल्यू) नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2014 से दी जाती हैं।	09 जून 2014*
हवलदार	महेश कुमार पाटील (सं. 2790777एन अब जेसी-460832वाई) नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2014 से दी जाती हैं।	11 जून 2014*
हवलदार	दावरे संजय तुकाराम (सं. 2789396ए अब जेसी-460834के) * नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 अप्रैल 2014 से दी जाती हैं।	26 जून 2014*
हवलदार	अमरसिंह लक्ष्मणराव निम्बालकर (सं. 2792381एच अब जेसी-460835एम) नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 अप्रैल 2014 से दी जाती हैं।	04 सितम्बर 2014*
हवलदार	हवलदार संजय बालू (सं. 2789850पी अब जेसी-460836पी) * नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014 से दी जाती हैं।	01 जुलाई 2014*
हवलदार	नाईकवाडी रामचंद्र केशव (सं. 2791413एन अब जेसी-460837एक्स) * नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 18 मई 2014 से दी जाती हैं।	18 जुलाई 2014*
हवलदार	बोगाटे एकनाथ बाजीराव (सं. 2791500एफ अब जेसी-460838ए) * नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 18 मई 2014 से दी जाती हैं।	18 जुलाई 2014*
हवलदार	सुतार निंगप्पा मल्लप्पा (सं. 2790340ए अब जेसी-460839एच) * नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जाती हैं।	06 जून 2014*
हवलदार	गवली राजेंद्र कारभारी (सं. 2791024एन अब जेसी-460840एक्स) * नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जाती हैं।	06 जून 2014*
हवलदार	पाटील निवरत्ती बापू (सं. 2791290एम अब जेसी-460841ए) * नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जाती हैं।	17 जुलाई 2014*
हवलदार	शेख हबीब महमदभाई (सं. 2788157वाई अब जेसी-460845डब्ल्यू)	01 जुलाई 2014
हवलदार	दलवी वासुदेव रामचंद्र (सं. 3188141एम अब जेसी-460846वाई) * नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जाती हैं।	18 जुलाई 2014*
हवलदार	मोहिते संदीप कृष्णाराव (सं. 2790160एक्स अब जेसी-460847एफ) * नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जाती हैं।	03 जुलाई 2014*
हवलदार	शिंदे रामहरी बन्सी (सं. 2790119एफ अब जेसी-460848के) * नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जाती हैं।	05 अगस्त 2014*
हवलदार	सावंत फातू वसंत (सं. 2791308एक्स अब जेसी-460849एम)	01 जुलाई 2014
हवलदार	झांग्रे तुकाराम अप्पासो (सं. 2791363एन अब जेसी-460850एफ)	01 जुलाई 2014
हवलदार	गोले रमेश शिवराम (सं. 2791369पी अब जेसी-460852एम)	01 अगस्त 2014
हवलदार	पवार सुभाश वसंतराव (सं. 2791291पी अब जेसी-460853पी)	01 अगस्त 2014
हवलदार	घनशाम दत्तात्रेय म्हस्के (सं. 2791621एच अब जेसी-460854एक्स)	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार लिपिक (एस डी) के रैंक में		
हवलदार लिपिक (एस डी)	राम बाबू (सं. 2887865एन अब जेसी-460833एफ) * नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2014 से दी जाती हैं।	02 जून 2014*

हवलदार लिपिक (एस डी)	रामाक्रिशनन एस	(सं. 2887770एन अब जेसी-460842एच)	20 अगस्त 2014*
* नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जाती हैं।			
हवलदार लिपिक (एस डी)	मूस्लेम उद्दीन खान	(सं. 2788468एम अब जेसी-460843एल)	10 जुलाई 2014*
* नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2013 से दी जाती हैं।			
हवलदार लिपिक (एस डी)	वीए नारायना	(सं. 2788546वाई अब जेसी-460844एन)	01 जुलाई 2014
हवलदार लिपिक (एस डी)	सावंत शंकर पांडुरंग	(सं. 2788590एच अब जेसी-460851के)	01 अगस्त 2014

सिख लाईट इन्फैन्ट्री

नायब सूबेदार : जी0 डी0 के रैंक में

हवलदार	कुलविन्दर सिंह	(4472150 वाई अब जे सी-510363 ए)	13 जुलाई 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2013 से दी जायेगी।			
हवलदार	मन्जीत सिंह	(4470603 ए अब जे सी-510364 एच)	22 जुलाई 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2013 से दी जायेगी।			
हवलदार	जनक सिंह	(4470744 पी अब जे सी-510365 एल)	23 जुलाई 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2013 से दी जायेगी।			
हवलदार	सुमित्तर सिंह	(4471009 एल अब जे सी-510366 एन)	22 जुलाई 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2013 से दी जायेगी।			
हवलदार	रमेश सिंह	(4471025 एच अब जे सी-510367 डब्ल्यू)	24 जुलाई 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2013 से दी जायेगी।			
हवलदार	गुरचरण सिंह	(4471037 एक्स अब जे सी-510368 वाई)	24 जुलाई 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2013 से दी जायेगी।			
हवलदार	जसवन्त सिंह	(4471253 एल अब जे सी-510369 एफ)	22 जुलाई 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2013 से दी जायेगी।			
हवलदार	सुखदेव सिंह	(4473504 एच अब जे सी-510370 डब्ल्यू)	15 अगस्त 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 जुलाई 2013 से दी जायेगी।			
हवलदार	जसविन्दर सिंह	(4474174 एफ अब जे सी-510371 वाई)	15 अगस्त 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 जुलाई 2013 से दी जायेगी।			
हवलदार	सुरिन्दर सिंह	(4471942 एम अब जे सी-510372 एफ)	15 अगस्त 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 जुलाई 2013 से दी जायेगी।			
हवलदार	जरनैल सिंह	(4474018 एक्स अब जे सी-510373 के)	15 अगस्त 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 जुलाई 2013 से दी जायेगी।			
हवलदार	क्रिशन सिंह	(4475000 एन अब जे सी-510374 एम)	17 अगस्त 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 जुलाई 2013 से दी जायेगी।			
हवलदार	अमरजीत सिंह	(4473208 एक्स अब जे सी-510380 ए)	12 अगस्त 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 अगस्त 2013 से दी जायेगी।			
हवलदार	सतपाल सिंह	(4471065 के अब जे सी-510382 एल)	07 सितम्बर 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2013 से दी जायेगी।			
हवलदार	जसवन्त सिंह	(4473660 एम अब जे सी-510383 एन)	02 सितम्बर 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2013 से दी जायेगी।			

हवलदार	अमरजीत सिंह	(4474063 के अब जे सी-510384 डब्ल्यू)	21 सितम्बर 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 अगस्त 2013 से दी जायेगी।			
हवलदार	जोरा सिंह	(4476289 एन अब जे सी-510385 वाई)	21 सितम्बर 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 अगस्त 2013 से दी जायेगी।			
हवलदार	परमिन्दर सिंह	(4471822 एन अब जे सी-510387 के)	19 सितम्बर 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2013 से दी जायेगी।			
हवलदार	कुलदीप सिंह	(4475193 वाई अब जे सी-510388 एम)	11 सितम्बर 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2013 से दी जायेगी।			
हवलदार	सतनाम सिंह	(4471391 एम अब जे सी-510389 पी)	01 सितम्बर 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2013 से दी जायेगी।			
हवलदार	गुरमेल सिंह	(4472056 पी अब जे सी-510390 के)	30 अक्टूबर 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2013 से दी जायेगी।			
हवलदार	हरपाल सिंह	(4473146 एच अब जे सी-510391 एम)	15 अक्टूबर 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 अगस्त 2013 से दी जायेगी।			
हवलदार	सज्जन सिंह	(4471314 एक्स अब जे सी-510392 पी)	28 सितम्बर 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2013 से दी जायेगी।			
हवलदार	चमकौर सिंह	(4473312 एल अब जे सी-510393 एक्स)	24 अक्टूबर 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 सितम्बर 2013 से दी जायेगी।			
हवलदार	अमरजीत सिंह	(4471363 ए अब जे सी-510394 ए)	29 अक्टूबर 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 सितम्बर 2013 से दी जायेगी।			
हवलदार	हरजिन्दर सिंह	(4470811 पी अब जे सी-510395 एच)	09 अक्टूबर 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 29 सितम्बर 2013 से दी जायेगी।			
हवलदार	जगजीत सिंह	(4470496 के अब जे सी-510397 एन)	10 अक्टूबर 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2013 से दी जायेगी।			
हवलदार	सतनाम सिंह	(4470729 ए अब जे सी-510398 डब्ल्यू)	29 अक्टूबर 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 अक्टूबर 2013 से दी जायेगी।			
हवलदार	सुखवीर सिंह	(4471157 डब्ल्यू अब जे सी-510400 एच)	18 नवम्बर 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2013 से दी जायेगी।			
हवलदार	हरमिन्दर सिंह	(4472681 डब्ल्यू अब जे सी-510401 एल)	14 नवम्बर 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2013 से दी जायेगी।			
हवलदार	संतोख सिंह	(4473100 ए अब जे सी-510402 एन)	14 दिसम्बर 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2013 से दी जायेगी।			
हवलदार	चरनजीत सिंह	(4470870 एफ अब जे सी-510403 डब्ल्यू)	28 सितम्बर 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 सितम्बर 2013 से दी जायेगी।			
हवलदार	मुख्त्यार सिंह	(4471349 एन अब जे सी-510405 एफ)	27 नवम्बर 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2013 से दी जायेगी।			
हवलदार	उपेन्दर सिंह	(4471507 एक्स अब जे सी-510406 के)	28 नवम्बर 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2013 से दी जायेगी।			

हवलदार	परकाश सिंह	(4275171 डब्ल्यू अब जे सी-510407 एम)	01 दिसम्बर 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 नवम्बर 2013 से दी जायेगी।			
हवलदार	राजेन्द्र सिंह	(4470961 एल अब जे सी-510408 पी)	05 दिसम्बर 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 नवम्बर 2013 से दी जायेगी।			
हवलदार	परकाश सिंह	(4271318 के अब जे सी-510412 एक्स)	05 दिसम्बर 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2013 से दी जायेगी।			
हवलदार	राजिन्दर सिंह	(4471976 ए अब जे सी-510413 ए)	17 दिसम्बर 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2013 से दी जायेगी।			
हवलदार	नरेन्द्र सिंह	(4471999 एफ अब जे सी-510414 एच)	17 दिसम्बर 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2013 से दी जायेगी।			
हवलदार	मंगल सिंह	(4472803 पी अब जे सी-510415 एल)	19 दिसम्बर 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2013 से दी जायेगी।			
हवलदार	लाभ सिंह	(4473443 डब्ल्यू अब जे सी-510416 एन)	10 जनवरी 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 जुलाई 2013 से दी जायेगी।			
हवलदार	सतगुर सिंह	(4472862 एफ अब जे सी-510417 डब्ल्यू)	16 जनवरी 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 अगस्त 2013 से दी जायेगी।			
हवलदार	राम सिंह	(4471063 वाई अब जे सी-510418 वाई)	01 जनवरी 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2013 से दी जायेगी।			
हवलदार	सिंदर सिंह	(2991719 ए अब जे सी-510419 एफ)	09 जनवरी 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2013 से दी जायेगी।			
हवलदार	बलकार सिंह	(4471085 एक्स अब जे सी-510420 डब्ल्यू)	01 जनवरी 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2013 से दी जायेगी।			
हवलदार	कुलदेव सिंह	(4472218 पी अब जे सी-510421 वाई)	19 नवम्बर 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2013 से दी जायेगी।			
हवलदार	सुखबीर सिंह	(4271567 एच अब जे सी-510422 एफ)	19 नवम्बर 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2013 से दी जायेगी।			
हवलदार	गुरमेल सिंह	(4475230 एफ अब जे सी-510423 के)	10 जनवरी 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 नवम्बर 2013 से दी जायेगी।			
हवलदार	सुरजीत सिंह	(4472904 एच अब जे सी-510424 एम)	01 जनवरी 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2013 से दी जायेगी।			
हवलदार	कुलविंदर सिंह	(4475024 एक्स अब जे सी-510425 पी)	28 दिसम्बर 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2013 से दी जायेगी।			
हवलदार	रूप सिंह	(4472365 एक्स अब जे सी-510426 एक्स)	13 जनवरी 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2013 से दी जायेगी।			
हवलदार	कपूर सिंह	(4271321 के अब जे सी-510427 ए)	26 दिसम्बर 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2013 से दी जायेगी।			
हवलदार	हरदेव सिंह	(4472099 के अब जे सी-510428 एच)	28 दिसम्बर 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 दिसम्बर 2013 से दी जायेगी।			

हवलदार	गुरनाम सिंह	(4472220 एम अब जे सी-510429 एल)	28 दिसम्बर 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 दिसम्बर 2013 से दी जायेगी।			
हवलदार	कुलदीप सिंह	(4473190 एम अब जे सी-510430 ए)	01 जनवरी 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 दिसम्बर 2013 से दी जायेगी।			
हवलदार	परमजीत सिंह	(4471502 वाई अब जे सी-510431 एच)	08 जनवरी 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 दिसम्बर 2013 से दी जायेगी।			
हवलदार	हरदीप सिंह	(4472105 एम अब जे सी-510432 एल)	10 जनवरी 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 दिसम्बर 2013 से दी जायेगी।			
हवलदार	कुलदीप सिंह	(4472404 एल अब जे सी-510433 एन)	10 जनवरी 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 दिसम्बर 2013 से दी जायेगी।			
हवलदार	हेमराज सिंह	(4471070 पी अब जे सी-510434 डब्ल्यू)	17 जनवरी 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2014 से दी जायेगी।			
हवलदार	दलवीर सिंह	(4472236 एक्स अब जे सी-510435 वाई)	01 जनवरी 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2014 से दी जायेगी।			
हवलदार	हरजिंदर सिंह	(2991851 ए अब जे सी-510436 एफ)	21 जनवरी 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 अक्टूबर 2013 से दी जायेगी।			
हवलदार	अवतार सिंह	(4470190 एफ अब जे सी-510438 एम)	10 जनवरी 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2013 से दी जायेगी।			
हवलदार	जगतार सिंह	(4472707 ए अब जे सी-510439 पी)	18 जनवरी 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2013 से दी जायेगी।			
हवलदार	सुरिंदर सिंह	(4473316 एफ अब जे सी-510440 के)	24 जनवरी 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 दिसम्बर 2013 से दी जायेगी।			
हवलदार	निर्मल सिंह	(4471641 एच अब जे सी-510441 एम)	10 जनवरी 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 दिसम्बर 2013 से दी जायेगी।			
हवलदार	सोना सिंह	(13620393 ए अब जे सी-510442 पी)	28 जनवरी 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 दिसम्बर 2013 से दी जायेगी।			
हवलदार	कुलवंत सिंह	(4475665 के अब जे सी-510443 एक्स)	29 जनवरी 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 दिसम्बर 2013 से दी जायेगी।			
हवलदार	नन्द सिंह	(4468634 एफ अब जे सी-510444 ए)	20 जनवरी 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2014 से दी जायेगी।			
हवलदार	गुरचरन सिंह	(4471621 पी अब जे सी-510445 एच)	04 फरवरी 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2014 से दी जायेगी।			
हवलदार	जसवीर सिंह भाटोई	(4471964 एल अब जे सी-510446 एल)	19 फरवरी 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2014 से दी जायेगी।			
हवलदार	तरसेम सिंह	(4472585 एफ अब जे सी-510447 एन)	27 जनवरी 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2014 से दी जायेगी।			
हवलदार	बलबीर सिंह	(4472049 वाई अब जे सी-510448 डब्ल्यू)	04 फरवरी 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2014 से दी जायेगी।			

हवलदार	साहिब सिंह	(4472773 एच अब जे सी-510449 वाई)	29 जनवरी 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 जनवरी 2014 से दी जायेगी।			
हवलदार	अमरजीत सिंह	(441068 एक्स अब जे सी-510450 एन)	28 जनवरी 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 जनवरी 2014 से दी जायेगी।			
हवलदार	जगदेव सिंह	(2992246 वाई अब जे सी-510451 डब्ल्यू)	12 फरवरी 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2014 से दी जायेगी।			
हवलदार	गुरमीत सिंह	(4472422 एन अब जे सी-510452 वाई)	10 फरवरी 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2014 से दी जायेगी।			
हवलदार	बूटा सिंह	(4469465 एक्स अब जे सी-510455 एम)	01 अप्रैल 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 अप्रैल 2012 से दी जायेगी।			
हवलदार	जसविंदर सिंह	(4473861 एल अब जे सी-510456 पी)	01 नवम्बर 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 सितम्बर 2013 से दी जायेगी।			
हवलदार	गुरदेव सिंह	(4473487 एन अब जे सी-510457 एक्स)	12 मार्च 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 सितम्बर 2013 से दी जायेगी।			
हवलदार	रघवीर सिंह	(4473544 के अब जे सी-510458 ए)	22 फरवरी 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 दिसम्बर 2013 से दी जायेगी।			
हवलदार	तरसेम सिंह	(4472856 एन अब जे सी-510459 एच)	10 मार्च 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 दिसम्बर 2013 से दी जायेगी।			
हवलदार	परमिंदर सिंह	(4472271 ए अब जे सी-510460 एक्स)	12 मार्च 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 दिसम्बर 2013 से दी जायेगी।			
हवलदार	हरविंदर सिंह	(4472237 ए अब जे सी-510461 ए)	05 अप्रैल 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 दिसम्बर 2013 से दी जायेगी।			
हवलदार	राज सिंह	(4472275 डब्ल्यू अब जे सी-510462 एच)	08 अप्रैल 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2014 से दी जायेगी।			
हवलदार	जसविंदर सिंह	(4471871 डब्ल्यू अब जे सी-510463 एल)	01 फरवरी 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2014 से दी जायेगी।			
हवलदार	रोशन सिंह	(4472341 एन अब जे सी-510464 एन)	07 अप्रैल 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2014 से दी जायेगी।			
हवलदार	गुरचरन सिंह	(4472382 एक्स अब जे सी-510465 डब्ल्यू)	05 अप्रैल 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2014 से दी जायेगी।			
हवलदार	नेतर सिंह	(4474299 वाई अब जे सी-510466 वाई)	01 मार्च 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 फरवरी 2014 से दी जायेगी।			
हवलदार	मेजर सिंह	(4470776 एक्स अब जे सी-510467 एफ)	01 मार्च 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 फरवरी 2014 से दी जायेगी।			
हवलदार	जसबीर सिंह	(4472608 एक्स अब जे सी-510468 के)	03 अप्रैल 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2014 से दी जायेगी।			
हवलदार	करनैल सिंह	(4270882 एम अब जे सी-510469 एम)	10 मार्च 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2014 से दी जायेगी।			

[illegible]

[illegible]

हवलदार	हाकम सिंह	(4470534 पी अब जे सी-510511ए)	31 जनवरी 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में	वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2013 से दी जायेगी।		
हवलदार	सिकंदर सिंह	(4472387 डब्ल्यू अब जे सी-510512 एच)	05 जून 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में	वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार	सुरजीत सिंह	(4472132 डब्ल्यू अब जे सी-510513 एल)	04 जुलाई 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में	वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 मार्च 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार	गुरमुख सिंह	(4471835 एल अब जे सी-510514 एन)	10 जुलाई 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में	वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 मार्च 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार	सुखविंदरजीत सिंह	(4472002 एन अब जे सी-510515 डब्ल्यू)	01 मई 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में	वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार	गुरपियार सिंह	(4472947 एक्स अब जे सी-510516 वाई)	20 जून 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में	वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार	परकाश सिंह	(4471975 एक्स अब जे सी-510517 एफ)	01 जून 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में	वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 अप्रैल 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार	जसविंदर सिंह	(4472624 पी अब जे सी-510518 के)	15 जून 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में	वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 अप्रैल 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार	जसविंदर सिंह	(4472048 डब्ल्यू अब जे सी-510519 एम)	01 जून 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में	वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 अप्रैल 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार	निर्मल सिंह	(4471886 वाई अब जे सी-510520 एफ)	01 जून 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में	वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 अप्रैल 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार	जसबीर सिंह	(4473641 एफ अब जे सी-510521 के)	03 जून 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में	वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 18 मई 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार	जगजीवन सिंह	(4473768 के अब जे सी-510522 एम)	10 जून 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में	वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 18 मई 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार	लखविंदर सिंह	(4271564 पी अब जे सी-510523 पी)	03 जुलाई 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में	वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 जून 2014 से दी जायेगी।		
नायब सूबेदार (क्लर्क) एस0 डी0 के रैंक में			
हवलदार (क्लर्क) गायकवाड सयाजी ददासो	(4471752 ए अब जे सी-510375 पी)		01 अगस्त 2013*
नायब सूबेदार (क्लर्क)(एस0 डी0) के रैंक में	वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2013 से दी जायेगी।		
हवलदार (क्लर्क) मोहिन्दर सिंह	(4472659 एल अब जे सी-510376 एक्स)		01 अगस्त 2013*
नायब सूबेदार (क्लर्क)(एस0 डी0) के रैंक में	वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2013 से दी जायेगी।		
हवलदार (क्लर्क) मनी राम सैनी	(4472953 एल अब जे सी-510377 ए)		01 अगस्त 2013*
नायब सूबेदार (क्लर्क)(एस0 डी0) के रैंक में	वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2013 से दी जायेगी।		
हवलदार (क्लर्क) नरेश कुमार	(4472315 एम अब जे सी-510378 एच)		01 अगस्त 2013*
नायब सूबेदार (क्लर्क)(एस0 डी0) के रैंक में	वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2013 से दी जायेगी।		
हवलदार (क्लर्क) कप्तान सिंह	(4473240 एम अब जे सी-510379 एल)		01 अगस्त 2013*
नायब सूबेदार (क्लर्क)(एस0 डी0) के रैंक में	वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2013 से दी जायेगी।		

हवलदार (क्लर्क) चन्द्र भूषण सिंह	(4473241 पी अब जे सी-510381 एच)	01 सितम्बर 2013*
नायब सूबेदार (क्लर्क)(एस0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2013 से दी जायेगी।		
हवलदार (क्लर्क) जसविन्दर सिंह	(4473388 एल अब जे सी-510386 एफ)	01 सितम्बर 2013*
नायब सूबेदार (क्लर्क)(एस0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2013 से दी जायेगी।		
हवलदार (क्लर्क) रन्जु सिंधा	(4471748 एक्स अब जे सी-510396 एल)	17 अक्टूबर 2013*
नायब सूबेदार (क्लर्क)(एस0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2013 से दी जायेगी।		
हवलदार (क्लर्क) मुनेश्वर प्रसाद	(4473688 एम अब जे सी-510399 वाई)	01 नवम्बर 2013*
नायब सूबेदार (क्लर्क)(एस0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2013 से दी जायेगी।		
हवलदार (क्लर्क) गुरुमुख सिंह	(4472189 एल अब जे सी-510404 वाई)	07 दिसम्बर 2013*
नायब सूबेदार (क्लर्क)(एस0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2013 से दी जायेगी।		
हवलदार (क्लर्क) सत्यवीर सिंह	(4472980 पी अब जे सी-510409 एक्स)	02 दिसम्बर 2013*
नायब सूबेदार (क्लर्क)(एस0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2013 से दी जायेगी।		
हवलदार (क्लर्क) विरेन्द्र सिंह पाल	(4472982 ए अब जे सी-510410 एम)	21 दिसम्बर 2013*
नायब सूबेदार (क्लर्क)(एस0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2013 से दी जायेगी।		
हवलदार (क्लर्क) शिव गोविन्द सिंह	(4473293 एल अब जे सी-510411 पी)	01 जनवरी 2014*
नायब सूबेदार (क्लर्क)(एस0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2013 से दी जायेगी।		
हवलदार (क्लर्क) हरवीर सिंह	(4473295 डब्ल्यू अब जे सी-510437 के)	18 जनवरी 2014*
नायब सूबेदार (क्लर्क)(एस0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2013 से दी जायेगी।		
हवलदार (क्लर्क) अनूप डे	(4473401 के अब जे सी-510453 एफ)	01 मार्च 2014*
नायब सूबेदार (क्लर्क)(एस0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार (क्लर्क) बलविंदर सिंह	(4472666 एफ अब जे सी-510454 के)	01 मार्च 2014*
नायब सूबेदार (क्लर्क)(एस0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार (क्लर्क) सुरिंदर सिंह	(4471863 एक्स अब जे सी-510471 के)	02 अप्रैल 2014*
नायब सूबेदार (क्लर्क)(एस0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार (क्लर्क) गियान सिंह	(4472029 एल अब जे सी-510509 एच)	01 मई 2014*
नायब सूबेदार (क्लर्क)(एस0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार (क्लर्क) वेंकटा क्रिश्ना रेड्डी एम	(4473692 पी अब जे सी-510510 एक्स)	02 जून 2014*
नायब सूबेदार (क्लर्क)(एस0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार (क्लर्क) कैलाश सिंह	(4472451 एच अब जे सी-510524 एक्स)	12 जुलाई 2014*
नायब सूबेदार (क्लर्क)(एस0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार (क्लर्क) राजेश कुमार	(4473243 ए अब जे सी-510525 ए)	03 जुलाई 2014*
नायब सूबेदार (क्लर्क)(एस0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जायेगी।		

महार रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार	शमशेर सिंह	4562660एफ (अब जे. सी. 571179एल)	25 फरवरी 2014
(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 21 अक्टूबर 2013)			
हवलदार	रघुविन्द्र सिंह	4563457एक्स (अब जे. सी. 571180ए)	01 अप्रैल 2014
(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 20 दिसम्बर 2013)			

हवलदार (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 23 दिसम्बर 2013)	संतोष कुमार सिंह	4563092एन (अब जे. सी. 571181एच)	17 फरवरी 2014
हवलदार (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 09 जनवरी 2014)	शक्ति सिंह परिहार	4563483वाई (अब जे. सी. 571182एल)	08 अप्रैल 2014
हवलदार	धिरेंद्र कुमार	4566636एच (अब जे. सी. 571183एन)	05 फरवरी 2014*
हवलदार * (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2014)	स्वापन कुमार मण्डल	4565094एक्स (अब जे. सी. 571184डब्ल्यू)	07 मार्च 2014*
हवलदार (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 02 फरवरी 2014)	उत्तम कुमार पाल	4565182एन (अब जे. सी. 571185वाई)	18 मार्च 2014
हवलदार	रमेश सिंह	4561827एन (अब जे. सी. 571186एफ)	14 मार्च 2014@
हवलदार	महेश पाल सिंह	4562713पी (अब जे. सी. 571187के)	27 अप्रैल 2014@
हवलदार @ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 08 फरवरी 2014)	परसोत्तम सिंह	4562715ए (अब जे. सी. 571188एम)	25 अप्रैल 2014@
हवलदार	प्रमोद सिंह	4562809एक्स (अब जे. सी. 571189पी)	27 अप्रैल 2014#
हवलदार	विरेंद्र प्रसाद	4562850एन (अब जे. सी. 571190के)	25 अप्रैल 2014#
हवलदार	भजन सिंह	4563491एक्स (अब जे. सी. 571191एम)	10 मई 2014#
हवलदार # (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 मार्च 2014)	लाल बहादुर सिंह	4565362डब्ल्यू (अब जे. सी. 571192पी)	25 अप्रैल 2014#
हवलदार (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 21 मार्च 2014)	विजय बहादुर सिंह	4564426के (अब जे. सी. 571193एक्स)	23 अप्रैल 2014
हवलदार	गब्बर सिंह नेगी	4562631एम (अब जे. सी. 571194ए)	01 अप्रैल 2014\$
हवलदार	राजेश कुमार	4564045एच (अब जे. सी. 571195एच)	02 अप्रैल 2014\$
हवलदार	सुखबिंदर सिंह	4563511ए (अब जे. सी. 571196एल)	10 मई 2014\$
हवलदार	सुनील कुमार	4565263एन (अब जे. सी. 571197एन)	23 अप्रैल 2014\$
हवलदार	सालवे देवानन्द तोताराम	4564735एम (अब जे. सी. 571198डब्ल्यू)	05 मई 2014\$
हवलदार \$ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2014)	जाधव अभिमान पुंडलिक	4564740एक्स (अब जे. सी. 571199वाई)	05 मई 2014\$
हवलदार	सर्वेश सिंह	4563572एक्स (अब जे. सी. 571200एच)	10 मई 2014%
हवलदार % (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 02 अप्रैल 2014)	धर्म पाल	4563834एच (अब जे. सी. 571201एल)	10 मई 2014%
हवलदार (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 26 अप्रैल 2014)	देवी सिंह	4563948एन (अब जे. सी. 571202एन)	10 मई 2014
हवलदार (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2014)	रोहीताश चंद	4563649पी (अब जे. सी. 571203डब्ल्यू)	01 फरवरी 2014
हवलदार (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 23 फरवरी 2014)	पेमा राम	4562798डब्ल्यू (अब जे. सी. 571204वाई)	03 मई 2014
हवलदार (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 30 मार्च 2014)	कौशल प्रसाद पटेल	4562764एच (अब जे. सी. 571205एफ)	25 अप्रैल 2014

हवलदार लिपिक (एस डी)	योगेश कुमार गुप्ता	4565175एक्स (अब जे. सी. 571206के)	04 मई 2014*
हवलदार लिपिक (एस डी)	नागाराजु पंचादलर्ला	4565392एन (अब जे. सी. 571207एम)	11 अप्रैल 2014*
हवलदार	नवराज रॉय	4565621एन (अब जे. सी. 571208पी)	01 अप्रैल 2014*
* (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2014)			
हवलदार	शारदा प्रसाद	8033695एल (अब जे. सी. 571209एक्स)	18 अप्रैल 2014
(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 04 अप्रैल 2014)			
हवलदार	महेश	4566376एच (अब जे. सी. 571210एम)	08 मई 2014*
हवलदार	आनन्द सिंह	4564467एन (अब जे. सी. 571211पी)	04 अप्रैल 2014*
हवलदार	जसवीर सिंह	4565661पी (अब जे. सी. 571212एक्स)	20 जून 2014*
* (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2014)			
हवलदार	राम वहादुर	4564237ए (अब जे. सी. 571213ए)	08 मई 2014@
हवलदार	घनश्याम	4565316एफ (अब जे. सी. 571214एच)	08 मई 2014@
हवलदार	मनोज कुमार	4565887ए (अब जे. सी. 571215एल)	08 मई 2014@
@ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 मार्च 2014)			
हवलदार	हिंगोले भगवान नामदेव	4563357एम (अब जे. सी. 571216एन)	02 जून 2014
(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2014)			
हवलदार	मस्के राजेंद्र विश्वंत	4563363ए (अब जे. सी. 571217डब्ल्यू)	09 जून 2014
(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 29 अप्रैल 2014)			
हवलदार	कमल सिंह	4563975एक्स (अब जे. सी. 571218वाई)	10 जुलाई 2014
(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 07 मई 2014)			
हवलदार	सुधीर कुमार थापा	4562975एल (अब जे. सी. 571219एफ)	02 जून 2014
(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 17 मई 2014)			
हवलदार	हीरा लाल	4564058ए (अब जे. सी. 571220डब्ल्यू)	11 जुलाई 2014
(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 27 मई 2014)			
हवलदार	सुरिन्दर कुमार	4563902एल (अब जे. सी. 571221वाई)	09 जून 2014#
हवलदार	अनूप चौधरी	4566065पी (अब जे. सी. 571222एफ)	02 जून 2014#
# (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2014)			

मद्रास रेजीमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार	सगदेवन बी	(2595397पी अब जेसी 440877एक्स)	30 मार्च 2013*
(* नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 फरवरी 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	कृष्णा चौगले	(2595858एन अब जेसी 440890एफ)	01 मई 2013*
(* नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 अप्रैल 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	टी अनूप कुमार	(2596148एच अब जेसी 440891के)	02 मई 2013*
(* नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	दामोदरन जी	(2596219वाई अब जेसी 440892एम)	02 मई 2013*
(* नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2013 से दी जायेगी)			

हवलदार	सिदाप्पा मुलाकरि	(2595648एन अब जेसी 440893पी)	01 मई 2013
हवलदार	पी एस नवनीता कृष्णन्	(2595741पी अब जेसी 440894एक्स)	01 मई 2013
हवलदार	वेंकटैया थाथुरि	(2596672डब्ल्यू अब जेसी 440895ए)	13 मई 2013'
(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	रायाप्पा सिदनाल	(2594492पी अब जेसी 440896एच)	21 मई 2013*
(* नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	अशरफ पी	(2595680एच् अब जेसी 440897एल)	01 मई 2013
हवलदार	जी रामाकृष्णन	(2596242एम् अब जेसी 440898एन्)	03 जून 2013*
(* नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	रामागौडा पाटिल	(2596664एक्स अब जेसी 440899डब्ल्यू)	25 जून 2013*
(* नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	गोसाहेब सोलापुरे	(2596865डब्ल्यू अब जेसी 440900ए)	01 मई 2013
हवलदार	मिटटना पितांबर रेड्डी	(2596862एच अब जेसी 440901एम्)	01 मई 2013
हवलदार	परशुराम यल्लुरकर	(2596929डब्ल्यू अब जेसी 440902एल्)	01 मई 2013
हवलदार	प्रसाद ए बी	(2596969एक्स अब जेसी 440903एन्)	01 मई 2013
हवलदार	जेयबाल एम	(2592531के अब जेसी 440904डब्ल्यू)	01 मई 2013
हवलदार	पी टी प्रमोद कुमार	(2596061एफ अब जेसी 440905वाई)	05 जून 2013*
(* नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 मई 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	अनीश एम	(2596314एल् अब जेसी 440906एफ)	03 जून 2013*
(* नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 मई 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	कामेश्वर राव पेदिदनी	(2603249एफ अब जेसी 440907के)	16 जुलाई 2013*
(* नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 18 मई 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	सथियन एम वी	(4363186एफ अब जेसी 440908एम्)	15 जून 2013*
(* नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 मई 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	आर मुरली	(2594672एक्स अब जेसी 440909पी)	01 जुलाई 2013*
(* नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 31 मई 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार लिपिक	श्री प्रकाश	(1486596डब्ल्यू अब जेसी 440910के)	11 जून 2013*
(* नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	सुनिल के आर	(2594850पी अब जेसी 440911एम)	08 जून 2013*
(* नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	एस बेब जोन	(2598234एम अब जेसी 440912पी)	01 जुलाई 2013*
(* नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	एस शिव कुमार	(2596661के अब जेसी 440913 एक्स)	20 जुलाई 2013*
(* नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	के एम एस जहांगीर	(2597402एन अब जेसी 440914ए)	15 जुलाई 2013*
(* नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	एम मुथु राज	(2600614एम अब जेसी 440915एच्)	01 जुलाई 2013

हवलदार	ए गोविंदा राज	(3990960डब्ल्यू अब जेसी 440916एल)	06 जुलाई 2013
हवलदार	येरागोर्ला पेदिद्राजु	(2596170एन अब जेसी 440917एन)	29 अगस्त 2013*
(* नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	कोरादा गुना राव	(2596334वाई अब जेसी 440919वाई)	23 अगस्त 2013*
(* नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	आर रमेश	(2595425 डब्ल्यू अब जेसी 440920एन)	05 अगस्त 2013*
(* नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 जुलाई 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	महंतेश बसैया वस्त्रदा एम यू	(259635के अब जेसी 440921डब्ल्यू)	02 अगस्त 2013*
(* नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	सुरुलिवेल जी	(2596202एल अब जेसी 440922वाई)	06 अगस्त 2013*
(* नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	चिन्नाप्पा ईक्कालाकी	(2596983के अब जेसी 440923एफ)	05 अगस्त 2013*
(* नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	वर्गीस एम पी	(2598498एन अब जेसी 440925एम)	31 अगस्त 2013*
(* नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	रंगपा राव चनडना	(2597722एच अब जेसी 440918एच)	08 अक्टूबर 2013*
(* नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	बी अनटोनी राजा	(2598238एच अब जेसी 440924के)	05 नवम्बर 2013*
(* नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	सी श्रवणनन	(2596498पी अब जेसी 440926पी)	17 सितम्बर 2013*
(* नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 अगस्त 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	एस कार्तिकेयन	(2598986डब्ल्यू अब जेसी 440927एक्स)	31 अक्टूबर 2013*
(* नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 अगस्त 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	दिनेश कुमार के	(2597301ए अब जेसी 440928ए)	04 सितम्बर 2013*
(* नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	एन तिरुपति रेडडी	(2597421वाई अब जेसी 440929एच)	07 सितम्बर 2013*
(* नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	सवरी मुत्तू	(2595974डब्ल्यू अब जेसी 440930एक्स)	03 सितम्बर 2013*
(* नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	प्रकाश नीरलकट्टी	(2598936एल अब जेसी 440931ए)	09 नवम्बर 2013*
(* नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	श्रीजीत एम	(2597237एन अब जेसी 440932एच)	26 सितम्बर 2013*
(* नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	डी गोपी	(2597799एल अब जेसी 440933एल)	05 सितम्बर 2013*
(* नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	मनोज पीए	(2597896एच अब जेसी 440934एन)	04 नवम्बर 2013*
(* नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2013 से दी जायेगी)			

हवलदार	निंगपा कुरि	(2594969वाई अब जेसी 440935डब्ल्यू)	04 अक्टूबर 2013*
(* नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 29 जून 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	साजित जी	(2596914एन अब जेसी 440936वाई)	15 सितम्बर 2013
हवलदार	श्रीनिवासा रेड्डी कोकी	(2594934एच अब जेसी 440937एफ)	02 नवम्बर 2013*
(* नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 सितम्बर 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	पी रघुनाथन	(3392686एल अब जेसी 440938के)	18 नवम्बर 2013*
(* नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 सितम्बर 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	के मारियप्पन	(2596712एम अब जेसी 440939एम)	20 नवम्बर 2013*
(* नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 सितम्बर 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार लिपिक	वासु आर	(2596083ए अब जेसी 440940एफ)	14 अक्टूबर 2013*
(* नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार लिपिक	मनोज कुमार	(1486637पी अब जेसी 440941के)	06 अक्टूबर 2013*
(* नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	गणेशा आर एम	(2597343एम अब जेसी 440942एम)	30 अक्टूबर 2013*
(* नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	अलिसेट्टी रमेश	(2596638डब्ल्यू अब जेसी 440943पी)	30 अक्टूबर 2013*
(* नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	रामाकृष्णा एम के	(2596999पी अब जेसी 440944एक्स)	10 अक्टूबर 2013*
(* नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	दुना रामाकृष्णा राव	(2597001वाई अब जेसी 440945ए)	10 अक्टूबर 2013*
(* नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	सिदप्पा थाइकर	(2596198एन अब जेसी 440946एच)	04 नवम्बर 2013*
(* नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	सी वेक्टेस्वरा रेड्डी	(2596276ए अब जेसी 440947एल)	12 नवम्बर 2013*
(* नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	कुमार स्वामी बंधना	(2598257एन अब जेसी 440948एन)	02 जनवरी 2014*
(* नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 सितंबर 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	आनंदन वालियापरमबिल	(2597915एच अब जेसी 440949डब्ल्यू)	07 नवंबर 2013*
(* नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	शिवप्पा पीडी	(2599460डब्ल्यू अब जेसी 440950एल)	09 अक्टूबर 2013*
(* नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	सुवारी अप्पला नायडु	(2596562एफ अब जेसी 440951एन)	23 अक्टूबर 2013*
(* नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 अक्टूबर 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार (लिपिक)	पालिला श्रीनु	(2596139एफ अब जेसी 440952डब्ल्यू)	16 दिसंबर 2013*
(* नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवंबर 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार (लिपिक)	तारा दत्त	(2597451डब्ल्यू अब जेसी 440953वाई)	06 दिसंबर 2013*
(* नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवंबर 2013 से दी जायेगी)			

हवलदार (लिपिक)	एम विल्वा कुमारन	(2595685एफ अब जेसी 440954एफ)	02 दिसंबर 2013*
(* नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवंबर 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार (लिपिक)	उत्तम कुमार कुंडु	(1486640पी अब जेसी 440955के)	18 दिसंबर 2013*
(* नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवंबर 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	मलाया पडाला	(13619715एच अब जेसी 440956एम)	22 नवम्बर 2013*
(* नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 सितंबर 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	राजन आर	(2598509पी अब जेसी 440957पी)	25 जनवरी 2014*
(* नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	सुन्दर राजन ए	(2483376एक्स अब जेसी 440958एक्स)	10 दिसंबर 2013*
(* नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 अक्टूबर 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	अब्बदुला बेग	(2596358एच अब जेसी 440959ए)	01 नवम्बर 2013*
हवलदार	के सत्यासीलन	(2595932के अब जेसी 440960पी)	07 नवम्बर 2013*
(* नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	सेक सफी	(2597334एल अब जेसी 440961एक्स)	11 नवम्बर 2013*
(* नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	वोमिनेनी अनजनेयलु	(2597439पी अब जेसी 440962ए)	14 नवम्बर 2013*
(* नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	अरुण कुमार के	(2597305डब्ल्यू अब जेसी 440963एच)	06 नवम्बर 2013*
(* नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	अंबालगन एन	(2596359एल अब जेसी 440964एल)	01 नवम्बर 2013
हवलदार	एम कुमारास्वामी	(2597362एक्स अब जेसी 440965एन)	01 नवम्बर 2013
हवलदार	संतोष कुमार वीबी	(2596411एच अब जेसी 440966डब्ल्यू)	11 नवम्बर 2013*
(* नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	जगया इतराजुला	(2596492एन अब जेसी 440967वाई)	19 नवम्बर 2013*
(* नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	विजया कुमार के	(2598155एक्स अब जेसी 440968एफ)	01 नवम्बर 2013*
हवलदार	पुष्पराज केएम	(2599506एन अब जेसी 440969के)	01 नवम्बर 2013*
हवलदार	के सरवणन	(13619385पी अब जेसी 440970वाई)	29 नवम्बर 2013*
(* नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	टी मणिकंडन	(2599585एन अब जेसी 440971एफ)	12 दिसंबर 2013*
(* नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 नवम्बर 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	गोलावली वी अप्पा राव	(2598971एन अब जेसी 440972के)	11 जनवरी 2014*
(* नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 अक्टूबर 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	वी इलगोवन	(2595454एल अब जेसी 440973एम)	24 दिसंबर 2013*
(* नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	भास्करन जी	(2597337वाई अब जेसी 440974पी)	19 दिसंबर 2013*
(* नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 नवम्बर 2013 से दी जायेगी)			

सिख रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार	मनजीत सिंह	(3393652के अब जे सी 500814एफ)	30 जुलाई 2014
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 जून 2014			
हवलदार	तलविन्दर सिंह	(3393825डब्ल्यू अब जे सी 500815के)	20 अगस्त 2014
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014			
हवलदार	तेजिन्दर सिंह	(3394050एच अब जे सी 500816एम)	20 अगस्त 2014
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014			
हवलदार	सविन्दर सिंह	(3393117के अब जे सी 500817पी)	01 जुलाई 2014
हवलदार	दर्शन सिंह	(3393479एल अब जे सी 500818एक्स)	01 जुलाई 2014
हवलदार	कुलवंत सिंह	(3393064डब्ल्यू अब जे सी 500819ए)	21 अगस्त 2014
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014			
हवलदार	सुखदर्शन सिंह	(3393732एफ अब जे सी 500820पी)	01 जुलाई 2014
हवलदार	त्रिलोक सिंह	(3393855एन अब जे सी 500821एक्स)	01 जुलाई 2014
हवलदार	रविन्द्र सिंह	(3394009एम अब जे सी 500822ए)	01 जुलाई 2014
हवलदार	राजीव सिंह	(3394017एल अब जे सी 500823एच)	01 जुलाई 2014
हवलदार	गुलजार सिंह	(3398355ए अब जे सी 500824एल)	01 जुलाई 2014
हवलदार	बलजिन्दर सिंह	(3394891एल अब जे सी 500825एन)	01 जुलाई 2014
हवलदार	बलजिन्दर सिंह	(3393838एन अब जे सी 500826डब्ल्यू)	21 अगस्त 2014
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014			
हवलदार	कुलदीप सिंह	(3393580एल अब जे सी 500827वाई)	19 अगस्त 2014
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014			
हवलदार	मलकियत सिंह	(3393775डब्ल्यू अब जे सी 500828एफ)	19 अगस्त 2014
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014			
हवलदार	अरजिन्दर सिंह	(3393997एल अब जे सी 500829के)	01 जुलाई 2014
हवलदार	निरमैल सिंह	(3394911एन अब जे सी 500830वाई)	21 अगस्त 2014
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014			

नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में

हवलदार लिपिक	सतीश कुमार	(3395127एम अब जे सी 500831एफ)	29 जून 2014
नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 जून 2014			
हवलदार लिपिक	विजय कुमार शुक्ला	(3395979एफ अब जे सी 500832के)	01 जुलाई 2014
हवलदार लिपिक	केवल कुमार	(3396171एच अब जे सी 500833एम)	01 जुलाई 2014
हवलदार लिपिक	अशोक कुमार	(3396213के अब जे सी 500834पी)	01 जुलाई 2014
हवलदार लिपिक	जतिन्दर सिंह	(3396277पी अब जे सी 500835एक्स)	01 जुलाई 2014

वी एन रविन्द्रन
अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE
New Delhi, 24th January 2015

ARMY BRANCH

No. 10, dated 30th December 2014—The President is pleased to make the following appointments on his personal staff with effect from 01st Sep 2014(FN): -

To be Honorary Surgeon

(a) Lt Gen VP Chaturvedi, VSM, DGMS (Army) (MR-04006Y)

PAWAN KAPOOR
Maj Gen
Addl DGAFMS (HR)

MILITARY SECRETARY'S BRANCH

No. 11, Date 31st December 2014—The President is pleased to make the following promotion: -

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION
TO BE SUBSTANTIVE MAJ GEN

Sl No	IC NO	RANK	NAME	ARM	D.O. ACTG MAJ GEN	D.O. SUBS MAJ GEN
1	V-00358	A/MAJ GEN	PS NARWAL	RVC	03.04.13	03.04.13

TO BE SUBSTANTIVE BRIGADIERS

Sl No	IC NO	RANK	NAME	ARM	D.O. ACTG BRIG	D.O. SUBS BRIG
1	V-00359	A/BRIG	AJ SINGH	RVC	02.12.11	01.05.12
2	V-00372	A/BRIG	JS DHARMADHERAN	RVC	01.07.12	01.07.12
3	V-00383	A/BRIG	DEV RAJ	RVC	01.07.12	01.07.12
4	V-00373	A/BRIG	MA KELKAR	RVC	25.01.13	25.01.13
5	V-00391	A/BRIG	PR VENKATESH	RVC	15.04.13	15.04.13

SI No	IC NO	RANK	NAME	ARM	DATE OF A/BRIG	DATE OF SUBS BRIG
1	IC-39027	A/BRIG	JPS MAHLA	MF	01.07.11	01.07.11

SI No	IC NO	RANK	NAME	ARM	DATE OF A/BRIG	DATE OF SUBS BRIG
1	IC-41041	A/BRIG	PUNAM BALI	MF	27.08.14	27.08.14

(PK Pattnayak)
Dy MS(X)

(ARMY BRANCH)

No. 12, dated 1st January 2015— The President is pleased to make the following promotion :-

REGULAR ARMY

INFANTRY

THE SIKH LI

To be Subedar Major (GD)

Rank	Name	Army No	Date of	
			Promotion	Seniority
Sub	Nirmal Singh	JC-509303Y	01 Jun 2013	01 Jun 2013
Sub	Bikkar Singh	JC-509035A	01 Jun 2013	01 Jun 2013
Sub	Mukhtar Singh	JC-509202L	02 Jul 2013	01 Jul 2013
Sub	Bawa Singh	JC-509045K	01 Aug 2013	01 Aug 2013
Sub	Baljit Singh	JC-509201H	01 Sep 2013	01 Sep 2013
Sub	Kewal Singh	JC-509161M	01 Oct 2013	01 Oct 2013
Sub	Karam Singh	JC-509305K	01 Nov 2013	01 Nov 2013
Sub	Amarjit Singh	JC-509412L	01 Nov 2013	01 Nov 2013

Rank	Name	Army No	Date of	
			Promotion	Seniority
Sub	Jaipal Singh	JC-509377N	02 Dec 2013	01 Dec 2013
Sub	Hakam Singh	JC-509183L	01 Dec 2013	01 Dec 2013
Sub	Raghubir Singh	JC-509459W	01 Jan 2014	01 Jan 2014
Sub	Gurjit Singh	JC-509236Y	01 Jan 2014	01 Jan 2014
Sub	Hari Singh, SM	JC-509190F	01 Jan 2014	01 Jan 2014
Sub	Salinderpal Singh	JC-508930Y	04 May 2014	01 May 2014
Sub	Gurmeet Singh	JC-509114P	01 May 2014	01 May 2014
Sub	Salwinder Singh	JC-509447F	01 Jun 2014	01 Jun 2014
Sub	Avtar Singh	JC-509153N	01 Jul 2014	01 Jul 2014
Sub	Nirmal Singh	JC-509396Y	01 Aug 2014	01 Aug 2014
Sub	Hardip Singh	JC-509179H	01 Sep 2014	01 Sep 2014
Sub	Pal Singh	JC-509505A	01 Sep 2014	01 Sep 2014
Sub	Dilbag Singh	JC-509514F	01 Sep 2014	01 Sep 2014
Sub	Lakha Singh	JC-509475N	01 Oct 2014	01 Oct 2014
Sub	Sukhdev Singh	JC-509532K	01 Nov 2014	01 Nov 2014
Sub	Onkar Singh	JC-509543W	01 Nov 2014	01 Nov 2014

To be Subedar Major (Clk) (SD)

Sub (Clk)	Wazir Singh	JC-509090W	01 Sep 2013	01 Sep 2013
Sub (Clk)	Ajay Kumar Yadav	JC-509177X	04 Oct 2013	01 Oct 2013
Sub (Clk)	Bhagirathi Nayak	JC-509083A	02 Jun 2014	01 Jun 2014
Sub (Clk)	Rajendhra Yadava	JC-509249W	05 Aug 2014	11 Jul 2014

To be Subedar Major (RT)

Sub (RT)	Balwinder Singh	JC-220851X	01 Aug 2014	01 Aug 2014
----------	-----------------	------------	-------------	-------------

To be Subedar (GD)

Rank	Name	Army No	Date of Promotion
Nb Sub	Ranjit Singh	JC-510005P	11 Jan 2013
Nb Sub	Swaran Singh	JC-510006X	01 Feb 2013
Nb Sub	Harmail Singh	JC-510137H	01 Feb 2013
Nb Sub	Tajinder Singh	JC-510138L	01 Feb 2013
Nb Sub	Gurdeep Singh	JC-510139N	01 Feb 2013
Nb Sub	Beant Singh	JC-509649H	01 Mar 2013
Nb Sub	Satnam Singh	JC-509955X	01 Mar 2013
Nb Sub	Bhola Singh	JC-509956A	01 Mar 2013
Nb Sub	Balbir Singh	JC-510140H	01 Mar 2013
Nb Sub	Harbhajan Singh	JC-510145F	01 Mar 2013
Nb Sub	Bahadur Singh	JC-510157W	01 Mar 2013
Nb Sub	Kulwinder Singh	JC-509959N	05 Mar 2013
Nb Sub	Mukand Singh	JC-509722W	01 Apr 2013
Nb Sub	Gurdeep Singh	JC-509759X	01 Apr 2013
Nb Sub	Bahadur Singh	JC-509911A	01 Apr 2013
Nb Sub	Maninder Singh	JC-509938X	01 Apr 2013
Nb Sub	Buta Singh	JC-510002F	01 Apr 2013
Nb Sub	Randhir Singh	JC-510027N	01 Apr 2013
Nb Sub	Amrik Singh	JC-509982F	01 May 2013
Nb Sub	Balwant Singh	JC-509983K	01 May 2013
Nb Sub	Jaswant Singh	JC-509798W	01 Jun 2013
Nb Sub	Jasbir Singh	JC-509948F	01 Jun 2013
Nb Sub	Iqbal Singh	JC-509957H	01 Jun 2013
Nb Sub	Surinder Singh	JC-509966K	01 Jun 2013
Nb Sub	Mohan Singh	JC-510159F	01 Jun 2013
Nb Sub	Shamsher Singh	JC-510169L	01 Jun 2013
Nb Sub	Vijay Kumar	JC-510173N	01 Jun 2013
Nb Sub	Tarsem Singh	JC-510178M	01 Jun 2013
Nb Sub	Jaspal Singh	JC-510180K	01 Jun 2013
Nb Sub	Hira Singh	JC-510181M	01 Jun 2013
Nb Sub	Malkit Singh	JC-510183X	01 Jun 2013
Nb Sub	Baljit Singh	JC-510191W	01 Jun 2013

Rank	Name	Army No	Date of Promotion
Nb Sub	Kamaljeet Singh	JC-510193F	01 Jun 2013
Nb Sub	Kulwant Singh	JC-510198A	01 Jun 2013
Nb Sub	Hoshiar Singh	JC-509856P	25 Jun 2013
Nb Sub	Ram Lal Singh	JC-509850N	01 Jul 2013
Nb Sub	Balwinder Singh	JC-509853F	01 Jul 2013
Nb Sub	Karamjit Singh	JC-509879W	01 Jul 2013
Nb Sub	Ranjit Singh	JC-509884F	01 Jul 2013
Nb Sub	Didar Singh	JC-509892A	22 Jul 2013
Nb Sub	Kesar Singh	JC-509968P	22 Jul 2013
Nb Sub	Sarabjit Singh	JC-509967M	05 Aug 2013
Nb Sub	Jaswinder Singh	JC-509993N	05 Aug 2013
Nb Sub	Gurmukh Singh	JC-509960H	01 Sep 2013
Nb Sub	Balwinder Singh	JC-509988H	01 Sep 2013
Nb Sub	Ranjit Singh	JC-509999P	01 Sep 2013
Nb Sub	Sikandar Singh	JC-510199H	01 Sep 2013
Nb Sub	Surinder Singh	JC-510194K	20 Sep 2013
Nb Sub	Baljinder Singh	JC-510206N	24 Sep 2013
Nb Sub	Balwinder Singh	JC-509859H	29 Sep 2013
Nb Sub	Jit Singh	JC-509857X	01 Oct 2013
Nb Sub	Jaspal Singh	JC-510162F	01 Oct 2013
Nb Sub	Swaran Singh	JC-510072A	09 Oct 2013
Nb Sub	Bachittar Singh	JC-510073H	09 Oct 2013
Nb Sub	Jagshir Singh	JC-510075N	20 Oct 2013
Nb Sub	Balwant Singh	JC-509905M	01 Nov 2013
Nb Sub	Charanjit Singh	JC-509961L	01 Nov 2013
Nb Sub	Balwinder Singh	JC-510000W	01 Nov 2013
Nb Sub	Jagjodh Singh	JC-510001Y	01 Nov 2013
Nb Sub	Roop Singh	JC-510044N	01 Nov 2013
Nb Sub	Satnam Singh	JC-510045W	01 Nov 2013
Nb Sub	Charanjit Singh	JC-510061N	01 Nov 2013
Nb Sub	Rajinder Singh	JC-510210W	01 Nov 2013
Nb Sub	Gurditt Singh	JC-510222L	01 Nov 2013
Nb Sub	Lakhbir Singh	JC-510274F	01 Nov 2013

Rank	Name	Army No	Date of Promotion
Nb Sub	Manjinder Singh	JC-510077Y	11 Nov 2013
Nb Sub	Jagroop Singh	JC-509726M	01 Dec 2013
Nb Sub	Sukhwinder Singh	JC-509903F	01 Dec 2013
Nb Sub	Sarbjit Singh	JC-509915W	01 Dec 2013
Nb Sub	Raj Rajinder Singh	JC-509991H	01 Dec 2013
Nb Sub	Jarnail Singh	JC-510003K	01 Dec 2013
Nb Sub	Sukhdev Singh	JC-510085X	01 Dec 2013
Nb Sub	Sahib Singh	JC-510086A	01 Dec 2013
Nb Sub	Paramjit Singh	JC-510121X	01 Dec 2013
Nb Sub	Mansa Singh Mattu	JC-510124L	01 Dec 2013
Nb Sub	Gurdev Singh	JC-510004M	06 Dec 2013
Nb Sub	Hardial Singh	JC-509792P	08 Dec 2013
Nb Sub	Baldev Singh	JC-509917F	08 Dec 2013
Nb Sub	Mehal Singh	JC-509812X	08 Dec 2013
Nb Sub	Joginder Singh	JC-510276M	16 Dec 2013
Nb Sub	Jagdev Singh	JC-509841M	19 Dec 2013
Nb Sub	Kuldip Singh	JC-509992L	21 Dec 2013
Nb Sub	Jaswinder Singh	JC-509776X	01 Jan 2014
Nb Sub	Lakhvir Singh	JC-509800H	01 Jan 2014
Nb Sub	Jaspal Singh	JC-509918K	01 Jan 2014
Nb Sub	Mukhtiar Singh	JC-509950Y	01 Jan 2014
Nb Sub	Roshan Singh	JC-509964Y	01 Jan 2014
Nb Sub	Joginder Singh	JC-509972X	01 Jan 2014
Nb Sub	Nirmal Singh	JC-509974H	01 Jan 2014
Nb Sub	Harjinder Singh	JC-509975L	01 Jan 2014
Nb Sub	Panjab Singh	JC-509976N	01 Jan 2014
Nb Sub	Mangal Singh	JC-509978Y	01 Jan 2014
Nb Sub	Nirbhai Singh	JC-509985P	01 Jan 2014
Nb Sub	Harbhajan Singh	JC-509996F	01 Jan 2014
Nb Sub	Gurpyar Singh	JC-510026L	01 Jan 2014
Nb Sub	Amarpreet Singh	JC-510135X	01 Jan 2014
Nb Sub	Subhash Singh	JC-510062W	01 Jan 2014
Nb Sub	Shingara Singh	JC-510032Y	01 Jan 2014

Rank	Name	Army No	Date of Promotion
Nb Sub	Lakha Singh	JC-510033F	01 Jan 2014
Nb Sub	Gurmukh Singh	JC-510179P	01 Jan 2014
Nb Sub	Gurcharan Singh Sheehnmar	JC-510017K	10 Jan 2014
Nb Sub	Jaswant Singh	JC-510064F	23 Jan 2014
Nb Sub	Harjinder Singh	JC-509994W	01 Feb 2014
Nb Sub	Harjinder Singh	JC-510018M	01 Feb 2014
Nb Sub	Lakhbir Singh	JC-510076W	01 Feb 2014
Nb Sub	Labh Singh	JC-510214M	01 Feb 2014
Nb Sub	Bhajan Singh	JC-510215P	01 Feb 2014
Nb Sub	Kuldip Singh	JC-510172L	01 Feb 2014
Nb Sub	Sukhminder Singh	JC-510255W	01 Feb 2014
Nb Sub	Mittar Pal Singh	JC-510256Y	01 Feb 2014
Nb Sub	Sukhwinder Singh	JC-510230K	05 Feb 2014
Nb Sub	Natha Singh	JC-510048K	07 Feb 2014
Nb Sub	Jeewa Singh	JC-510068X	13 Feb 2014
Nb Sub	Balkar Singh	JC-509818Y	01 Mar 2014
Nb Sub	Gurnam Singh	JC-509829L	01 Mar 2014
Nb Sub	Manjit Singh	JC-509833N	01 Mar 2014
Nb Sub	Jasvir Singh	JC-509876H	01 Mar 2014
Nb Sub	Shingara Singh	JC-509986X	01 Mar 2014
Nb Sub	Rajinder Singh	JC-509997K	01 Mar 2014
Nb Sub	Satnam Singh	JC-510067P	01 Mar 2014
Nb Sub	Amarjit Singh	JC-510234A	01 Mar 2014
Nb Sub	Chamkaur Singh	JC-510247X	01 Mar 2014
Nb Sub	Narinder Singh	JC-510263P	01 Mar 2014
Nb Sub	Jaspal Singh	JC-509990A	31 Mar 2014
Nb Sub	Kashmir Singh	JC-509875A	01 Apr 2014
Nb Sub	Raj Singh	JC-509877L	01 Apr 2014
Nb Sub	Santokh Singh	JC-509906P	01 Apr 2014
Nb Sub	Prem Singh	JC-509914N	01 Apr 2014
Nb Sub	Narinder Singh	JC-509923P	01 Apr 2014
Nb Sub	Satnam Singh	JC-509925A	01 Apr 2014
Nb Sub	Manjit Singh Sidhu	JC-509929W	01 Apr 2014

Rank	Name	Army No	Date of Promotion
Nb Sub	Tarsem Singh	JC-509930L	01 Apr 2014
Nb Sub	Bachittar Singh	JC-509934F	01 Apr 2014
Nb Sub	Bikar Singh	JC-509980W	01 Apr 2014
Nb Sub	Bhagwant Singh	JC-509989L	01 Apr 2014
Nb Sub	Shiv Raj Singh	JC-509995Y	01 Apr 2014
Nb Sub	Gurmeet Singh	JC-509998M	01 Apr 2014
Nb Sub	Joga Singh	JC-510007A	01 Apr 2014
Nb Sub	Balwinder Singh	JC-510016F	01 Apr 2014
Nb Sub	Jaspal Singh	JC-510019P	01 Apr 2014
Nb Sub	Kuldip Singh	JC-510049M	01 Apr 2014
Nb Sub	Lal Singh	JC-510050F	01 Apr 2014
Nb Sub	Kulwinder Singh	JC-510052M	01 Apr 2014
Nb Sub	Jasvir Singh	JC-510053P	01 Apr 2014
Nb Sub	Kuldip Singh	JC-510056H	01 Apr 2014
Nb Sub	Mohinder Singh	JC-510057L	01 Apr 2014
Nb Sub	Jagsir Singh	JC-510069A	01 Apr 2014
Nb Sub	Gurmail Singh	JC-510070P	01 Apr 2014
Nb Sub	Kamaljit Singh	JC-510084P	01 Apr 2014
Nb Sub	Jagdish Singh	JC-510106H	01 Apr 2014
Nb Sub	Balbir Singh Jassal	JC-510107L	01 Apr 2014
Nb Sub	Bakhsish Singh	JC-510131F	01 Apr 2014
Nb Sub	Dalbir Singh	JC-510153A	01 Apr 2014
Nb Sub	Surjit Singh	JC-510167A	01 Apr 2014
Nb Sub	Kewal Singh	JC-510170A	01 Apr 2014
Nb Sub	Avtar Singh	JC-510176F	01 Apr 2014
Nb Sub	Jagtar Singh	JC-510186L	01 Apr 2014
Nb Sub	Jagdish Singh	JC-510189Y	01 Apr 2014
Nb Sub	Hansa Singh	JC-510204H	01 Apr 2014
Nb Sub	Parwinder Singh	JC-510213K	01 Apr 2014
Nb Sub	Chuhar Singh	JC-510218H	01 Apr 2014
Nb Sub	Balwinder Singh	JC-510235H	01 Apr 2014
Nb Sub	Dalbir Singh	JC-510238W	01 Apr 2014
Nb Sub	Gurnam Singh	JC-510242Y	01 Apr 2014

Rank	Name	Army No	Date of Promotion
Nb Sub	Ranjodh Singh	JC-510248A	01 Apr 2014
Nb Sub	Karam Singh	JC-510249H	01 Apr 2014
Nb Sub	Parmjit Singh	JC-510264X	01 Apr 2014
Nb Sub	Kashmir Singh	JC-510282A	01 Apr 2014
Nb Sub	Tarsem Singh	JC-510284L	01 Apr 2014
Nb Sub	Parshotam Singh	JC-510009L	04 Apr 2014
Nb Sub	Kulwant Singh	JC-510345X	22 Apr 2014
Nb Sub	Sukha Singh	JC-510079K	01 May 2014
Nb Sub	Baljit Singh	JC-510357M	15 May 2014
Nb Sub	Kulwinder Singh	JC-510308K	01 Jun 2014
Nb Sub	Harmail Singh	JC-510353W	01 Jun 2014
Nb Sub	Gurdeep Singh	JC-510354Y	01 Jun 2014
Nb Sub	Satpal Singh	JC-510382L	01 Jun 2014
Nb Sub	Malkit Singh	JC-510008H	24 Jun 2014
Nb Sub	Sohan Singh	JC-510260F	24 Jun 2014
Nb Sub	Jagjit Singh	JC-510283H	24 Jun 2014
Nb Sub	Avtar Singh, SM	JC-510318N	24 Jun 2014
Nb Sub	Harjeet Singh	JC-510336W	24 Jun 2014
Nb Sub	Gurmail Singh	JC-510390K	24 Jun 2014
Nb Sub	Santokh Singh	JC-510402N	24 Jun 2014
Nb Sub	Parkash Singh	JC-510407M	24 Jun 2014
Nb Sub	Lakhbir Singh	JC-510275K	08 Jul 2014
Nb Sub	Ram Singh	JC-510418Y	01 Aug 2014
Nb Sub	Chamkaur Singh	JC-510020K	01 Aug 2014
Nb Sub	Nachhattar Singh	JC-510078F	01 Aug 2014
Nb Sub	Harjit Singh	JC-510080Y	01 Aug 2014
Nb Sub	Balwant Singh	JC-510216X	01 Sep 2014
Nb Sub	Kewal Singh	JC-510022P	01 Sep 2014
Nb Sub	Kesar Singh	JC-510029Y	01 Sep 2014
Nb Sub	Balkar Singh	JC-510420W	01 Sep 2014
Nb Sub	Surjit Singh	JC-510424M	10 Sep 2014
Nb Sub	Puran Singh	JC-509940P	20 Sep 2014
Nb Sub	Sarbjeet Singh	JC-510328X	01 Oct 2014
Nb Sub	Jagmohan Singh	JC-510279A	03 Oct 2014

Rank	Name	Army No	Date of Promotion
Nb Sub	Raghubir Singh	JC-510099X	01 Nov 2014
Nb Sub	Bikram Singh	JC-510104X	01 Nov 2014
Nb Sub	Balwinder Singh	JC-510010A	11 Nov 2014
Nb Sub	Kulwinder Singh	JC-510363A	01 Dec 2014

To be Subedar (Clk) (SD)

Nb Sub (Clk)	Ashok Kumar	JC-509897Y	01 Jun 2013
Nb Sub (Clk)	Rajesh Kumar Mishra	JC-509898F	01 Jun 2013
Nb Sub (Clk)	Vinay Kumar Dwivedi	JC-509924X	01 Jun 2013
Nb Sub (Clk)	V Govinda Raju	JC-509724F	25 Jun 2013
Nb Sub (Clk)	Narendra Singh	JC-509935K	01 Aug 2013
Nb Sub (Clk)	Jaibir Singh	JC-509944L	01 Aug 2013
Nb Sub (Clk)	Dinesh Kumar Sen	JC-509945N	01 Aug 2013
Nb Sub (Clk)	Pattan KRT Khan	JC-509946W	01 Aug 2013
Nb Sub (Clk)	Babu Lal Gurjar	JC-510030N	01 Sep 2013
Nb Sub (Clk)	Anil Kumar Singh	JC-510031W	01 Oct 2013
Nb Sub (Clk)	Ram Dayal Yadav	JC-510035M	01 Nov 2013
Nb Sub (Clk)	Sita Ram Chopra	JC-510036P	01 Dec 2013
Nb Sub (Clk)	Deshamukh Arvind Shivaji	JC-510058N	01 Dec 2013
Nb Sub (Clk)	Surja Narayan Panigrahy	JC-510065K	01 Mar 2014
Nb Sub (Clk)	Satya Prakash Singh	JC-510071X	01 Apr 2014
Nb Sub (Clk)	Narasingha Padhy	JC-510108N	01 May 2014
Nb Sub (Clk)	Mahender Singh Maan	JC-510114F	01 Jun 2014
Nb Sub (Clk)	Satpal Singh	JC-510115K	01 Jul 2014
Nb Sub (Clk)	Bhupendra Singh Chauhan	JC-510116M	01 Jul 2014
Nb Sub (Clk)	Jadhav Vilas Ishwara	JC-510132K	01 Sep 2014
Nb Sub (Clk)	Patil Anand Rao Vasant Rao	JC-510134P	01 Sep 2014
Nb Sub (Clk)	Patil Vijaykumar Gunda	JC-510146K	01 Oct 2014
Nb Sub (Clk)	Shyoraj Singh Rana	JC-510168H	01 Oct 2014
Nb Sub (Clk)	Naba Kishore Kuanar	JC-510174W	01 Dec 2014
Nb Sub (Clk)	Rajesh AN Bhatt	JC-510175Y	01 Dec 2014

The Sikh Regiment

To be Subedar Major (GD)

Sub	Dalwinder Singh, SM	JC-499432H	01 Jul 2014
-----	---------------------	------------	-------------

Sub	Gurnam Singh	JC-499427X	01 Aug 2014
-----	--------------	------------	-------------

To be Subedar Major Clerk (SD)

Sub Clk	Palwinder Singh	JC-499670P	07 Jul 2014
---------	-----------------	------------	-------------

Gtd ante date seniority in the rank of Sub Maj Clk wef 01 Jul 2014 without effect on pay and allowances

To be Subedar (GD)

Nb Sub	Harmesh Singh	JC-500440W	16 Jun 2014
--------	---------------	------------	-------------

Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 23 Apr 2014 without effect on pay and allowances

Nb Sub	Gurmail Singh	JC-500185P	20 Aug 2014
--------	---------------	------------	-------------

Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2014 without effect on pay and allowances

Nb Sub	Satpal Singh	JC-500243N	25 Aug 2014
--------	--------------	------------	-------------

Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2014 without effect on pay and allowances

Nb Sub	Kulwant Singh	JC-500247K	19 Aug 2014
--------	---------------	------------	-------------

Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2014 without effect on pay and allowances

Nb Sub	Baljit Singh	JC-500291N	01 Jul 2014
--------	--------------	------------	-------------

Nb Sub	Jasvir Singh	JC-500316N	01 Jul 2014
--------	--------------	------------	-------------

Nb Sub	Bhagwant Singh	JC-500339W	01 Jul 2014
--------	----------------	------------	-------------

Nb Sub	Major Singh	JC-500360Y	01 Jul 2014
--------	-------------	------------	-------------

Nb Sub	Kanwaljit Singh	JC-500361F	01 Jul 2014
--------	-----------------	------------	-------------

Nb Sub	Paramjit Singh	JC-500369N	01 Jul 2014
--------	----------------	------------	-------------

Nb Sub	Lakhwinder Singh	JC-500380M	01 Jul 2014
--------	------------------	------------	-------------

Nb Sub	Gurmeet Singh	JC-500381P	01 Jul 2014
--------	---------------	------------	-------------

Nb Sub	Swaranjit Singh	JC-500448H	01 Jul 2014
--------	-----------------	------------	-------------

Nb Sub	Gurvail Singh	JC-500467N	22 Aug 2014
--------	---------------	------------	-------------

Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2014 without effect on pay and allowances

To be Subedar Clerk (SD)

Nb Sub Clk	Gulab Singh	JC-500241H	01 Jul 2014
Nb Sub Clk	Satyender Singh	JC-500261W	01 Jul 2014
Nb Sub Clk	Darshan Lal	JC-500319H	12 Jul 2014

Gtd ante date seniority in the rank of Sub Clk wef 01 Jul 2014 without effect on pay and allowances

THE PARACHUTE REGIMENT

PROMOTION OF JCOs

TO BE SUB (GD)

Nb Sub Santhosh V	(JC-413522H)	01 Jun 2014
Nb Sub Raj Kumar Sharma	(JC-413535A)	08 Jun 2014
Nb Sub Bablu R Marak	(JC-413536H)	01 Jul 2014
Nb Sub G Geevanaswara Reddy	(JC-413562K)	17 Aug 2014
Nb Sub Mitra Lal Budha	(JC-413542W)	01 Sep 2014
Nb Sub Mangal Singh	(JC-413473L)	01 Feb 2014
Nb Sub Dayal Singh Rawat	(JC-413481K)	21 Mar 2014
Nb Sub Veerendra Singh	(JC-413546M)	01 Apr 2014
Nb Sub Kailash Chandra	(JC-413532M)	01 Apr 2014
Nb Sub Anoop Singh	(JC-413588Y)	01 May 2014
Nb Sub Suresh Chand	(JC-413428Y)	01 Feb 2014
Nb Sub Manveer Singh	(JC-413426N)	01 Feb 2014
Nb Sub Laxmi Narayan	(JC-413427W)	01 Feb 2014
Nb Sub Suresh Singh	(JC-413432F)	01 Jun 2014
Nb Sub Randhir Singh	(JC-413433K)	01 Jun 2014
Nb Sub Basti Ram Bishnoi	(JC-413450K)	05 Jun 2014
Nb Sub Tarsem Singh	(JC-413451M)	05 Jun 2014
Nb Sub Manohar Singh	(JC-413475W)	05 Jun 2014
Nb Sub Radhe Singh	(JC-413489W)	01 Sep 2014
Nb Sub Ranjit Singh	(JC-413474N)	01 Apr 2014
Nb Sub Vilas Kumar	(JC-413488N)	02 Apr 2014
Nb Sub Mohd Anif, SM	(JC-413497P)	03 Apr 2014
Nb Sub Krishan Kumar	(JC-413287P)	01 Mar 2014
Nb Sub Padam Raj Rai	(JC-413328N)	01 Apr 2014
Nb Sub Keshav Singh	(JC-413484X)	01 Jun 2014
Nb Sub Kamlesh Bahadur Singh	(JC-413485A)	01 Jun 2014

Nb Sub Tej Singh	(JC-413524N)	01 Jun 2014
Nb Sub Surinder Singh	(JC-413568L)	12 Jul 2014
Nb Sub Jawan Singh	(JC-413559K)	01 Aug 2014
Nb Sub Yoginder Singh	(JC-413560Y)	01 Sep 2014
Nb Sub Dhanpati Show	(JC-413413W)	01 Apr 2014
Nb Sub Prasanta Kumar Panda	(JC-413429F)	01 May 2014
Nb Sub Rakesh Kumar	(JC-413422X)	07 May 2014
Nb Sub Hemant Kumar Thapa	(JC-413626K)	01 Apr 2014
Nb Sub Jagat Singh Bohra	(JC-413640W)	01 Apr 2014
Nb Sub Dharam Singh	(JC-413641Y)	01 Apr 2014
Nb Sub Kundan Singh Rawat	(JC-413658M)	01 May 2014
Nb Sub Thorat Sanjay Baban	(JC-413269M)	01 Jan 2014
Nb Sub Jayarama Naik	(JC-413288X)	08 Jan 2014
Nb Sub Gaikwad Madan Balasaheb	(JC-413355X)	01 May 2014
Nb Sub Manjunatha HJ	(JC-413385P)	01 May 2014
Nb Sub Krishna Kolaji Gouda	(JC-413443N)	07 May 2014
Nb Sub Chaware Laxman Kashiram	(JC-413447K)	01 Jun 2014
Nb Sub Kokitkar Ramu Jotiba	(JC-413452P)	01 Jul 2014
Nb Sub Hari AR, SM	(JC-413465M)	01 Sep 2014

(THE MAHAR REGIMENT)

TO BE SUBEDAR MAJOR (CLERK)

SUB CLK (SD)	DESH RAJ	JC-569569P	01 May 2013
SUB CLK (SD)	NARESH BABU	JC-569666M	*03 Aug 2013

* Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 01 Jul 13

TO BE SUBEDAR (CLERK)

NB SUB CLK (SD)	DAYAMA RAJESH SUBASH CHANDRA	JC-570413K	01 Feb 13
NB SUB CLK (SD)	NAND GANESH	JC-570414M	*05 Feb 13
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Feb 13.			
NB SUB CLK (SD)	V SARAVANAN	JC-570415P	01 Apr 13
NB SUB CLK (SD)	J CRUZE SAHAYARAJ	JC-570489K	01 Apr 13
NB SUB CLK (SD)	VINOD KUMAR SINGH	JC-570495X	#06 May 13
NB SUB CLK (SD)	SUDHANSU KUMAR JENA	JC-570517L	#28 Jun 13
NB SUB CLK (SD)	SATHEESH KUMAR T	JC-570539K	#17 Jun 13

#Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 May 13.

NB SUB CLK (SD)	KAUSHAL KUMAR SINGH	JC-570500X	\$02 Jul 13
-----------------	---------------------	------------	-------------

\$Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 13.

NB SUB CLK (SD)	RAJ KISHOR SINGH	JC-570540Y	@ 10 Jul 13
NB SUB CLK (SD)	ARUN KUMAR SINGH	JC-570565L	@ 22 Jul 13
NB SUB CLK (SD)	KUNWAR PAL SINGH	JC-570563A	@ 23 Jul 13
@Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jul 13.			
NB SUB CLK (SD)	SANJIB DAM	JC-570590K	01 Aug 13

THE MARATHA LI
TO BE NB SUB (GD)

Hav	More Manohar Shankar	(No 4073408A now JC-460827N)	02 Sep 2014*
	*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Sep 2013 without effect on pay and allowances.		
Hav	Sudhir Halaskar	(No 2790931F now JC-460828W)	05 Mar 2014*
	*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Nov 2013 without effect on pay and allowances.		
Hav	Sutar Satish Shivaji	(No 2790356L now JC-460829Y)	06 Jun 2014*
	*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Jan 2014 without effect on pay and allowances.		
Hav	Gaikwad Shankar Keshav	(No 2790631A now JC-460830N)	06 Jun 2014*
	*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Feb 2014 without effect on pay and allowances.		
Hav	Bhorde Somnath Pandharinath	(No 2792478N now JC-460831W)	09 Jun 2014*
	*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Feb 2014 without effect on pay and allowances.		
Hav	Mahesh Kumar Patil	(No 2790777N now JC-460832Y)	11 Jun 2014*
	*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Mar 2014 without effect on pay and allowances.		
Hav	Davare Sanjay Tukaram	(No 2789396A now JC-460834K)	26 Jun 2014*
	*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 09 Apr 2014 without effect on pay and allowances.		
Hav	Amarsingh Laxmanrao Nimbalkar	(No 2792381H now JC-460835M)	04 Sep 2014*
	*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 10 Apr 2014 without effect on pay and allowances.		
Hav	Havaladar Sanjay Balu	(No 2789850P now JC-460836P)	01 Jul 2014*
	*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 May 2014 without effect on pay and allowances.		
Hav	Naikawadi Ramchandra Keshav	(No 2791413N now JC-460837X)	18 Jul 2014*
	*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 18 May 2014 without effect on pay and allowances.		

Hav	Bagate Ekanath Bajirao	(No 2791500F now JC-460838A)	18 Jul 2014*
	*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 18 May 2014 without effect on pay and allowances.		
Hav	Sutar Ningappa Mallappa	(No 2790340A now JC-460839H)	06 Jun 2014*
	*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Jun 2014 without effect on pay and allowances.		
Hav	Gawali Rajendra Karbhari	(No 2791024N now JC-460840X)	06 Jun 2014*
	*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Jun 2014 without effect on pay and allowances.		
Hav	Patil Nivratti Bapu	(No 2791290M now JC-460841A)	17 Jul 2014*
	*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Jun 2014 without effect on pay and allowances.		
Hav	Sheikh Habib Mahamadsab	(No 2788157Y now JC-460845W)	01 Jul 2014
Hav	Dalavi Vasudev Ramchandra	(No 3188141M now JC-460846Y)	18 Jul 2014*
	*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Jul 2014 without effect on pay and allowances.		
Hav	Mohite Sandip Krishnarao	(No 2790160X now JC-460847F)	03 Jul 2014*
	*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Jul 2014 without effect on pay and allowances.		
Hav	Shinde Ramhari Bansi	(No 2790119F now JC-460848K)	05 Aug 2014*
	*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Jul 2014 without effect on pay and allowances.		
Hav	Sawant Fatu Vasant	(No 2791308X now JC-460849M)	01 Jul 2014
Hav	Zambre Tukaram Appaso	(No 2791363N now JC-460850F)	01 Jul 2014
Hav	Gole Ramesh Shivaram	(No 2791369P now JC-460852M)	01 Aug 2014
Hav	Pawar Subhash Vasantrao	(No 2791291P now JC-460853P)	01 Aug 2014
Hav	Ghansham Dattatraya Mhaske	(No 2791621H now JC-460854X)	01 Aug 2014
TO BE NB SUB CLK (SD)			
Hav Clk (SD)	Ram Babu	(No 2887865N now JC-460833F)	02 Jun 2014*
	*Granted seniority in the rank of Nb Sub Clk (SD) with effect from 01 Apr 2014 without effect on pay and allowances.		
Hav Clk (SD)	Ramakrishnan S	(No 2887770N now JC-460842H)	20 Aug 2014*
	*Granted seniority in the rank of Nb Sub Clk (SD) with effect from 01 Jul 2014 without effect on pay and allowances.		
Hav Clk (SD)	Muslem Uddin Khan	(No 2788468M now JC-460843L)	10 Jul 2014*
	*Granted seniority in the rank of Nb Sub Clk (SD) with effect from 01 Jul 2014 without effect on pay and allowances.		

Hav Clk (SD)	VA Narayana	(No 2788546Y now JC-460844N)	01 Jul 2014
-----------------	-------------	------------------------------	-------------

Hav Clk (SD)	Sawant Shankar Pandurang	(No 2788590H now JC-460851K)	01 Aug 2014
-----------------	--------------------------	------------------------------	-------------

THE SIKH LI

To be Naib Subedar (GD)

Hav Kulwinder Singh	(4472150Y now JC-510363A)	-	13 Jul 2013*
---------------------	---------------------------	---	--------------

*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Apr 2013.

Hav Manjit Singh	(4470603A now JC-510364H)	-	22 Jul 2013*
------------------	---------------------------	---	--------------

*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Jun 2013.

Hav Janak Singh	(4470744P now JC-510365L)	-	23 Jul 2013*
-----------------	---------------------------	---	--------------

*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Jun 2013

Hav Sumittar Singh	(4471009L now JC-510366N)	-	22 Jul 2013*
--------------------	---------------------------	---	--------------

*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Jun 2013.

Hav Ramesh Singh	(4471025H now JC-510367W)	-	24 Jul 2013*
------------------	---------------------------	---	--------------

*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Jun 2013.

Hav Gurcharan Singh	(4471037X now JC-510368Y)	-	24 Jul 2013*
---------------------	---------------------------	---	--------------

*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Jun 2013.

Hav Jaswant Singh	(4471253L now JC-510369F)	-	22 Jul 2013*
-------------------	---------------------------	---	--------------

*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Jun 2013.

Hav Sukhdev Singh	(4473504H now JC-510370W)	-	15 Aug 2013
-------------------	---------------------------	---	-------------

*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 05 Jul 2013.

Hav Jasvinder Singh	(4474174F now JC-510371Y)	-	15 Aug 2013*
---------------------	---------------------------	---	--------------

*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 05 Jul 2013.

Hav Surinder Singh	(4471942M now JC-510372F)	-	15 Aug 2013*
--------------------	---------------------------	---	--------------

*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 05 Jul 2013.

Hav Jarnail Singh	(4474018X now JC-510373K)	-	15 Aug 2013*
-------------------	---------------------------	---	--------------

*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 05 Jul 2013.

Hav Krishan Singh	(4475000N now JC-510374M)	-	17 Aug 2013*
-------------------	---------------------------	---	--------------

*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 22 Jul 2013.

Hav Amarjit Singh	(4473208X now JC-510380A)	-	12 Aug 2013*
-------------------	---------------------------	---	--------------

*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 05 Aug 2013.

Hav Satpal Singh	(4471065K now JC-510382L)	-	07 Sep 2013*
------------------	---------------------------	---	--------------

*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 May 2013.

Hav Jaswant Singh	(4473660M now JC-510383N)	-	02 Sep 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Jul 2013.			
Hav Amarjeet Singh	(4474063K now JC-510384W)	-	21 Sep 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 17 Aug 2013.			
Hav Jora Singh	(4476289N now JC-510385Y)	-	21 Sep 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 17 Aug 2013.			
Hav Parminder Singh	(4471822N now JC-510387K)	-	19 Sep 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Sep 2013.			
Hav Kuldip Singh	(4475193Y now JC-510388M)	-	11 Sep 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Sep 2013.			
Hav Satnam Singh	(4471391M now JC-510389P)	-	01 Sep 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Sep 2013.			
Hav Gurmail Singh	(4472056P now JC-510390K)	-	30 Oct 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Aug 2013.			
Hav Harpal Singh	(4473146H now JC-510391M)	-	15 Oct 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 02 Aug 2013.			
Hav Sajjan Singh	(4471314X now JC-510392P)	-	28 Sep 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Sep 2013.			
Hav Chamkour Singh	(4473312L now JC-510393X)	-	24 Oct 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 26 Sep 2013.			
Hav Amarjit Singh	(4471363A now JC-510394A)	-	29 Oct 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 26 Sep 2013.			
Hav Harjinder Singh	(4470811P now JC-510395H)	-	09 Oct 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 29 Sep 2013.			
Hav Jagjit Singh	(4470496K now JC-510397N)	-	10 Oct 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Oct 2013.			
Hav Satnam Singh	(4470729A now JC-510398W)	-	29 Oct 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 20 Oct 2013.			
Hav Sukhvir Singh	(4471157W now JC-510400H)	-	18 Nov 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Nov 2013.			
Hav Harminder Singh	(4472681W now JC-510401L)	-	14 Nov 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Nov 2013.			

Hav Santokh Singh	(4473100A now JC-510402N)	-	14 Dec 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Sep 2013.			
Hav Charanjit Singh	(4470870F now JC-510403W)	-	28 Sep 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 10 Sep 2013.			
Hav Mukhtiar Singh	(4471349N now JC-510405F)	-	27 Nov 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Nov 2013.			
Hav Upinder Singh	(4471507X now JC-510406K)	-	28 Nov 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Nov 2013.			
Hav Parkash Singh	(4275171W now JC-510407M)	-	01 Dec 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 09 Nov 2013.			
Hav Rajinder Singh	(4470961L now JC-510408P)	-	05 Dec 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 19 Nov 2013.			
Hav Parkash Singh	(4271318K now JC-510412X)	-	05 Dec 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Dec 2013.			
Hav Rajinder Singh	(4471976A now JC-510413A)	-	17 Dec 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Dec 2013.			
Hav Narinder Singh	(4471999F now JC-510414H)	-	17 Dec 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Dec 2013.			
Hav Mangal Singh	(4472803P now JC-510415L)	-	19 Dec 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Dec 2013.			
Hav Labh Singh	(4473443W now JC-510416N)	-	10 Jan 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 16 Jul 2013.			
Hav Satgur Singh	(4472862F now JC-510417W)	-	16 Jan 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 22 Aug 2013.			
Hav Ram Singh	(4471063Y now JC-510418Y)	-	01 Jan 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Oct 2013.			
Hav Shinder Singh	(2991719A now JC-510419F)	-	09 Jan 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Oct 2013.			
Hav Balkar Singh	(4471085X now JC-510420W)	-	01 Jan 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Nov 2013.			
Hav Kuldev Singh	(4472218P now JC-510421Y)	-	19 Nov 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Nov 2013.			

Hav Sukhbir Singh	(4271567H now JC-510422F)	-	19 Nov 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Nov 2013.			
Hav Gurmail Singh	(4475230F now JC-510423K)	-	10 Jan 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 14 Nov 2013.			
Hav Surjit Singh	(4472904H now JC-510424M)	-	01 Jan 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Dec 2013.			
Hav Kulwinder Singh	(4475024X now JC-510425P)	-	28 Dec 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Dec 2013.			
Hav Roop Singh	(4472365X now JC-510426X)	-	13 Jan 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Dec 2013.			
Hav Kapoor Singh	(4271321K now JC-510427A)	-	26 Dec 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Dec 2013.			
Hav Hardev Singh	(4472099K now JC-510428H)	-	28 Dec 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 08 Dec 2013.			
Hav Gurnam Singh	(4472220M now JC-510429L)	-	28 Dec 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 08 Dec 2013.			
Hav Kuldip Singh	(4473190M now JC-510430A)	-	01 Jan 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 11 Dec 2013.			
Hav Parmjit Singh	(4471502Y now JC-510431H)	-	08 Jan 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 21 Dec 2013.			
Hav Hardeep Singh	(4472105M now JC-510432L)	-	10 Jan 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 22 Dec 2013.			
Hav Kuldip Singh	(4472404L now JC-510433N)	-	10 Jan 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 24 Dec 2013.			
Hav Hemraj Singh	(4471070P now JC-510434W)	-	17 Jan 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Jan 2014.			
Hav Dalbir Singh	(4472236X now JC-510435Y)	-	01 Jan 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Jan 2014.			
Hav Harjinder Singh	(2991851A now JC-510436F)	-	21 Jan 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 24 Oct 2013.			
Hav Avtar Singh	(4470190F now JC-510438M)	-	10 Jan 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Dec 2013.			

Hav Jagtar Singh	(4472707A now JC-510439P)	-	18 Jan 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Dec 2013.			
Hav Surinder Singh	(4473316F now JC-510440K)	-	24 Jan 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 04 Dec 2013.			
Hav Nirmal Singh	(4471641H now JC-510441M)	-	10 Jan 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 10 Dec 2013.			
Hav Sona Singh	(13620393A now JC-510442P)	-	28 Jan 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 19 Dec 2013.			
Hav Kulwant Singh	(4475665K now JC-510443X)	-	29 Jan 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 25 Dec 2013.			
Hav Nand Singh	(4468634F now JC-510444A)	-	20 Jan 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Jan 2014.			
Hav Gurcharan Singh	(4471621P now JC-510445H)	-	04 Feb 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Jan 2014.			
Hav Jasvir Singh Bhatoe	(4471964L now JC-510446L)	-	19 Feb 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Jan 2014.			
Hav Tarsem Singh	(4472585F now JC-510447N)	-	27 Jan 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Jan 2014.			
Hav Balbir Singh	(4472049Y now JC-510448W)	-	04 Feb 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Jan 2014.			
Hav Sahib Singh	(4472773H now JC-510449Y)	-	29 Jan 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 23 Jan 2014.			
Hav Amarjeet Singh	(4471068X now JC-510450N)	-	28 Jan 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 23 Jan 2014.			
Hav Jagdev Singh	(2992246Y now JC-510451W)	-	12 Feb 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Feb 2014.			
Hav Gurmit Singh	(4472422N now JC-510452Y)	-	10 Feb 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Feb 2014.			
Hav Buta Singh	(4469465X now JC-510455M)	-	01 Apr 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 03 Apr 2012.			
Hav Jaswinder Singh	(4473861L now JC-510456P)	-	01 Nov 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 20 Sep 2013.			

Hav Gurdev Singh	(4473487N now JC-510457X)	-	12 Mar 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 22 Sep 2013.			
Hav Raghvir Singh	(4473544K now JC-510458A)	-	22 Feb 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 06 Dec 2013.			
Hav Tarsem Singh	(4472856N now JC-510459H)	-	10 Mar 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 08 Dec 2013.			
Hav Parminder Singh	(4472271A now JC-510460X)	-	12 Mar 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 10 Dec 2013.			
Hav Harwinder Singh	(4472237A now JC-510461A)	-	05 Apr 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 10 Dec 2013.			
Hav Raj Singh	(4472275W now JC-510462H)	-	08 Apr 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Jan 2014.			
Hav Jaswinder Singh	(4471871W now JC-510463L)	-	01 Feb 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Jan 2014.			
Hav Roshan Singh	(4472341N now JC-510464N)	-	07 Apr 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Feb 2014.			
Hav Gurcharan Singh	(4472382X now JC-510465W)	-	05 Apr 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Feb 2014.			
Hav Netar Singh	(4474299Y now JC-510466Y)	-	01 Mar 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 05 Feb 2014.			
Hav Major Singh	(4470776X now JC-510467F)	-	01 Mar 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 07 Feb 2014.			
Hav Jasbir Singh	(4472608X now JC-510468K)	-	03 Apr 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Mar 2014.			
Hav Karnail Singh	(4270882M now JC-510469M)	-	10 Mar 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Mar 2014.			
Hav Balvir Singh	(4472285A now JC-510470F)	-	08 Mar 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Mar 2014.			
Hav Balwinder Singh	(4473288A now JC-510472M)	-	01 Apr 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Apr 2014.			
Hav Sukhwinder Singh	(4473806P now JC-510473P)	-	01 Apr 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Apr 2014.			

Hav Gurdarshan Singh	(4474635A now JC-510474X)	-	01 Apr 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Apr 2014.			
Hav Sher Singh	(4470557W now JC-510475A)	-	05 Apr 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Apr 2014.			
Hav Manjit Singh	(4472603Y now JC-510476H)	-	01 Apr 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Apr 2014.			
Hav Tarsem Singh	(4472408F now JC-510477L)	-	01 Apr 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Apr 2014.			
Hav Gurtej Singh	(4469396M now JC-510478N)	-	27 Apr 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 06 Mar 2012.			
Hav Jarnail Singh	(4473094X now JC-510479W)	-	10 Apr 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Jan 2014.			
Hav Major Singh	(4472059H now JC-510480L)	-	19 Apr 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Jan 2014.			
Hav Bikram Singh	(4472197X now JC-510481N)	-	19 Apr 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Jan 2014.			
Hav Bhagwant Singh	(4472211L now JC-510482W)	-	26 Apr 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Jan 2014.			
Hav Baljeet Singh	(4472021Y now JC-510483Y)	-	20 Apr 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Mar 2014.			
Hav Parbodh Singh	(4471881A now JC-510484F)	-	11 Apr 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Mar 2014.			
Hav Jaswant Singh	(4472602W now JC-510485K)	-	17 Apr 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Apr 2014.			
Hav Balwinder Singh	(4472708H now JC-510486M)	-	30 Apr 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Apr 2014.			
Hav Gurbax Singh	(4472720K now JC-510487P)	-	30 Apr 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Apr 2014.			
Hav Tarlok Singh	(4472726L now JC-510488X)	-	17 Apr 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Apr 2014.			
Hav Gurlal Singh	(4474661F now JC-510489A)	-	17 Apr 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Apr 2014.			

Hav Budh Singh	(4470285F now JC-510490P)	-	23 May 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Apr 2014.			
Hav Jasvir Singh	(4472172X now JC-510491X)	-	10 Apr 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Apr 2014.			
Hav Baljit Singh	(4472827Y now JC-510492A)	-	10 Apr 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Apr 2014.			
Hav Darshan Singh	(2993389L now JC-510493H)	-	10 Apr 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Apr 2014.			
Hav Ranjit Singh	(4473998X now JC-510494L)	-	10 Apr 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Apr 2014.			
Hav Jarnail Singh	(4472747F now JC-510495N)	-	16 Apr 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Apr 2014.			
Hav Harbans Singh	(4471047F now JC-510496W)	-	09 May 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Apr 2014.			
Hav Ajaib Singh	(4472506F now JC-510497Y)	-	19 May 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Apr 2014.			
Hav Sukhwinder Singh	(4472372N now JC-510498F)	-	10 May 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Apr 2014.			
Hav Rajwinder Singh	(4472424Y now JC-510499K)	-	01 Apr 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Apr 2014.			
Hav Sukhdev Singh	(4472556M now JC-510500N)	-	24 Apr 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Apr 2014.			
Hav Sukhwinder Singh	(4472761N now JC-510501W)	-	16 Apr 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Apr 2014.			
Hav Ashok Singh	(4473201N now JC-510502Y)	-	16 Apr 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Apr 2014.			
Hav Sukhwinder Singh	(4473343L now JC-510503F)	-	16 Apr 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Apr 2014.			
Hav Balwant Singh	(4475098M now JC-510504K)	-	03 May 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 02 Apr 2014.			
Hav Balbir Singh	(4472875Y now JC-510505M)	-	05 May 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 07 Apr 2014.			

Hav Avtar Singh	(4473008F now JC-510506P)	-	13 May 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 07 Apr 2014.			
Hav Gurbachan Singh	(4274650H now JC-510507X)	-	23 May 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 10 Apr 2014.			
Hav Angrej Singh	(4472565N now JC-510508A)	-	24 Apr 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 13 Apr 2014.			
Hav Hakam Singh	(4470534P now JC-510511A)	-	31 Jan 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Mar 2013.			
Hav Sikander Singh	(4472387W now JC-510512H)	-	05 Jun 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Feb 2014.			
Hav Surjit Singh	(4472132W now JC-510513L)	-	04 Jul 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 16 Mar 2014.			
Hav Gurmukh Singh	(4471835L now JC-510514N)	-	10 Jul 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 16 Mar 2014.			
Hav Sukhwinderjit Singh	(4472002N now JC-510515W)	-	01 May 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Apr 2014.			
Hav Gurpair Singh	(4472947X now JC-510516Y)	-	20 Jun 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Apr 2014.			
Hav Parkash	(4471975X now JC-510517F)	-	01 Jun 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 02 Apr 2014.			
Hav Jaswinder Singh	(4472624P now JC-510518K)	-	15 Jun 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 02 Apr 2014.			
Hav Jaswinder Singh	(4472048W now JC-510519M)	-	01 Jun 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 02 Apr 2014.			
Hav Nirmal Singh	(4471886Y now JC-510520F)	-	01 Jun 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 02 Apr 2014.			
Hav Jasbir Singh	(4473641F now JC-510521K)	-	03 Jun 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 18 May 2014.			
Hav Jagjeevan Singh	(4473768K now JC-510522M)	-	10 Jun 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 18 May 2014.			
Hav Lakhwinder Singh	(4271564P now JC-510523P)	-	03 Jul 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 09 Jun 2014.			

To be Naib Subedar (Clk) (SD)

Hav (Clk) Gaikwad Sayaji Dadaso	(4471752A now JC-510375P)	-	01 Aug 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk)(SD) with effect from 01 Aug 2013.			
Hav (Clk) Mohinder Singh	(4472659L now JC-510376X)	-	01 Aug 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk)(SD) with effect from 01 Aug 2013.			
Hav (Clk) Mani Ram Saini	(4472953L now JC-510377A)	-	01 Aug 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk)(SD) with effect from 01 Aug 2013.			
Hav (Clk) Naresh Kumar	(4472315M now JC-510378H)	-	01 Aug 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk)(SD) with effect from 01 Aug 2013.			
Hav (Clk) Kaptan Singh	(4473240M now JC-510379L)	-	01 Aug 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk)(SD) with effect from 01 Aug 2013.			
Hav (Clk) Chandra Bhushan Singh	(4473241P now JC-510381H)	-	01 Sep 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk)(SD) with effect from 01 Sep 2013.			
Hav (Clk) Jaswinder Singh	(4473388L now JC-510386F)	-	01 Sep 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk)(SD) with effect from 01 Sep 2013.			
Hav (Clk) Ranju Singha	(4471748X now JC-510396L)	-	17 Oct 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk)(SD) with effect from 01 Oct 2013.			
Hav (Clk) Muneshwar Prasad	(4473688M now JC-510399Y)	-	01 Nov 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk)(SD) with effect from 01 Nov 2013.			
Hav (Clk) Gurmukh Singh	(4472189L now JC-510404Y)	-	07 Dec 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk)(SD) with effect from 01 Nov 2013.			
Hav (Clk) Satyavir Singh	(4472980P now JC-510409X)	-	02 Dec 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk)(SD) with effect from 01 Dec 2013.			
Hav (Clk) Virendra Singh Pal	(4472982A now JC-510410M)	-	21 Dec 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk)(SD) with effect from 01 Dec 2013.			
Hav (Clk) Shiv Govind Singh	(4473293L now JC-510411P)	-	01 Jan 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk)(SD) with effect from 01 Dec 2013.			
Hav (Clk) Harveer Singh	(4473295W now JC-510437K)	-	18 Jan 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk)(SD) with effect from 01 Dec 2013.			
Hav (Clk) Anup Dey	(4473401K now JC-510453F)	-	01 Mar 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk)(SD) with effect from 01 Mar 2014.			
Hav (Clk) Balwinder Singh	(4472666F now JC-510454K)	-	01 Mar 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk)(SD) with effect from 01 Mar 2014.			

Hav (Clk) Surender Singh (4471863X now JC-510471K) - 02 Apr 2014*
 *Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk)(SD) with effect from 01 Apr 2014.

Hav (Clk) Gian Singh (4472029L now JC-510509H) - 01 May 2014*
 *Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk)(SD) with effect from 01 May 2014.

Hav (Clk) Venkata Krishna Reddy M (4473692P now JC-510510X) - 02 Jun 2014*
 *Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk)(SD) with effect from 01 Jun 2014.

Hav (Clk) Kailash Singh (4472451H now JC-510524X) - 12 Jul 2014*
 *Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk)(SD) with effect from 01 Jul 2014.

Hav (Clk) Rajesh Kumar (4473243A now JC-510525A) - 03 Jul 2014*
 *Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk)(SD) with effect from 01 Jul 2014.

(THE MAHAR REGIMENT)
 TO BE NAIB SUBEDAR

HAV SHAMSHER SINGH 4562660F (Now JC-571179L) 25 Feb 2014

(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 21 Oct 2013)

HAV RAGHUVINDER SINGH 4563457X (Now JC-571180A) 01 Apr 2014

(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 20 Dec 2013)

HAV SANTOSH KUMAR SINGH 4563092N (Now JC-571181H) 17 Feb 2014

(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 23 Dec 2013)

HAV SHAKTI SINGH PARIHAR 4563483Y (Now JC-571182L) 08 Apr 2014

(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 09 Jan 2014)

HAV DHIRENDRA KUMAR 4566636H (Now JC-571183N) 05 Feb 2014*

HAV SWAPAN KUMAR MANDAL 4565094X (Now JC-571184W) 07 Mar 2014*

* (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Feb 2014)

HAV UTTAM KUMAR PAL 4565182N (Now JC-571185Y) 18 Mar 2014

(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 02 Feb 2014)

HAV RAMESH SINGH 4561827N (Now JC-571186F) 14 Mar 2014@

HAV MAHESH PAL SINGH 4562713P (Now JC-571187K) 27 Apr 2014@

HAV PARSOTTAM SINGH 4562715A (Now JC-571188M) 25 Apr 2014@

@ (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 08 Feb 2014)

HAV PRAMOD SINGH 4562809X (Now JC-571189P) 27 Apr 2014#

HAV VIRENDRA PRASAD 4562850N (Now JC-571190K) 25 Apr 2014#

HAV BHAJAN SINGH 4563491X (Now JC-571191M) 10 May 2014#

HAV LAL BAHADUR SINGH 4565362W (Now JC-571192P) 25 Apr 2014#

(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Mar 2014)

HAV	VIJAY BAHADUR SINGH	4564426K (Now JC-571193X)	23 Apr 2014
	(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 21 Mar 2014)		
HAV	GABAR SINGH NEGI	4562631M (Now JC-571194A)	01 Apr 2014\$
HAV	RAJESH KUMAR	4564045H (Now JC-571195H)	02 Apr 2014\$
HAV	SUKHBINDER SINGH	4563511A (Now JC-571196L)	10 May 2014\$
HAV	SUNIL KUMAR	4565263N (Now JC-571197N)	23 Apr 2014\$
HAV	SALVE DEVANAND TOTARAM	4564735M (Now JC-571198W)	05 May 2014\$
HAV	JADHAV ABHIMAN PUNDLIK	4564740X (Now JC-571199Y)	05 May 2014\$
	\$ (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Apr 2014)		
HAV	SARVESH SINGH	4563572X (Now JC-571200H)	10 May 2014%
HAV	DHARAM PAL	4563834H (Now JC-571201L)	10 May 2014%
	% (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 02 Apr 2014)		
HAV	DEVI SINGH	4563948N (Now JC-571202N)	10 May 2014
	(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 26 Apr 2014)		
HAV	ROHITASH CHAND	4563649P (Now JC-571203W)	01 Feb 2014
	(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Feb 2014)		
HAV	PEMA RAM	4562798W (Now JC-571204Y)	03 May 2014
	(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 23 Feb 2014)		
HAV	KAUSHAL PRASAD PATEL	4562764H (Now JC-571205F)	25 Apr 2014
	(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 30 Mar 2014)		
HAV CLK (SD)	YOGESH KUMAR GUPTA	4565175X (Now JC-571206K)	04 May 2014*
HAV CLK (SD)	NAGARAJU PANCHADARLA	4565392N (Now JC-571207M)	11 Apr 2014*
HAV	NAVRAJ ROY	4565621N (Now JC-571208P)	01 Apr 2014*
	* (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Apr 2014)		
HAV	SHARDA PRASAD	8033695L (Now JC-571209X)	18 Apr 2014
	(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 04 Apr 2014)		
HAV	MAHESH	4566376H (Now JC-571210M)	08 May 2014*
HAV	ANAND SINGH	4564467N (Now JC-571211P)	04 Apr 2014*
HAV	JASVIR SINGH	4565661P (Now JC-571212X)	20 Jun 2014*
	* (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Feb 2014)		
HAV	RAM VAHADUR	4564237A (Now JC-571213A)	08 May 2014@
HAV	GHANSHYAM	4565316F (Now JC-571214H)	08 May 2014@
HAV	MANOJ KUMAR	4565887A (Now JC-571215L)	08 May 2014@
	@ (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Mar 2014)		

HAV	HINGOLE BHAGWAN NAMDEO	4563357M (Now JC-571216N)	02 Jun 2014
	(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Apr 2014)		
HAV	MASKE RAJENDRA VISHVANT	4563363A (Now JC-571217W)	09 Jun 2014
	(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 29 Apr 2014)		
HAV	KAMAL SINGH	4563975X (Now JC-571218Y)	10 Jul 2014
	(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 07 May 2014)		
HAV	SUDHIT KUMAR THAPA	4562975L (Now JC-571219F)	02 Jun 2014
	(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 17 May 2014)		
HAV	HEERA LAL	4564058A (Now JC-571220W)	11 Jul 2014
	(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 27 May 2014)		
HAV	SURINDER KUMAR	4563902L (Now JC-571221Y)	09 Jun 2014#
HAV	ANUP CHOUDHURY	4566065P (Now JC-571222F)	02 Jun 2014#
	# (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Jun 2014)		

THE MADRAS REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Sagadevan B	2595397P now JC440877X	30 Mar 13*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 25 Feb 13 without effect on pay and allces)		
Hav Krishna Chougule	2595858N now JC440890F	01 May 13*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 19 Apr 13 without effect on pay and allces)		
Hav T Anoop Kumar	2596148H now JC440891K	02 May 13*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 13 without effect on pay and allces)		
Hav Dhamodaran G	2596219Y now JC440892M	02 May 13*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 13 without effect on pay and allces)		
Hav Siddappa Mulakuri	2595648N now JC440893N	01 May 13
Hav PS Navaneetha Krishnan	2595741P now JC440894X	01 May 13
Hav Venkataiah Thathuri	2596672W now JC 440895A	13 May13*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 13 without effect on pay and allces)		
Hav Rayappa Sidnal	2594492P now JC440896H	21 May 13*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 13 without effect on pay and allces)		
Hav Asharaf P	2595680H now JC 440897L	01 May 13
Hav G Ramakrishnan	2596242M now JC440898N	03 Jun 13*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 13 without effect on pay and allces)		
Hav Rama Gouda Patil	2596664X now JC440899W	25 Jun 13*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 13 without effect on pay and allces)		
Hav Gausaheb Solapure	2596865W now JC440900A	01 May 13
Hav Mittana Pitambara Reddy	2596862H now JC440901H	01 May 13
Hav Parasharam Yallurkar	2596929W now JC440902L	01 May 13
Hav Prasad AB	2596969X now JC440903N	01 May 13
Hav Jeyabal M	2592531K now JC440904W	01 May 13
Hav PT Pramod Kumar	2596061F now JC440905Y	05 Jun 13*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 02 May 13 without effect on pay and allces)		
Hav Aneesh M	2596314L now JC440906F	03 Jun 13*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 11 May 13 without effect on pay and allces)		

Hav Kameswara Rao Peddini	2603249F now JC440907K	16 Jul 13*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 18 May 13 without effect on pay and allces)		
Hav Sathian MV	4363186F now JC440908M	15 Jun 13*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 22 May 13 without effect on pay and allces)		
Hav R Murali	2594672X now JC440909P	01 Jul 13*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 31 May 13 without effect on pay and allces)		
Hav(Clk) Sree Prakash	1486596W now JC440910K	11 Jun 13*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 13 without effect on pay and allces)		
Hav Sunil KR	2594850P now JC440911M	08 Jun 13*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 13 without effect on pay and allces)		
Hav S Bab John	2598234M now JC 440912P	01 Jul 13*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 13 without effect on pay and allces)		
Hav S Siva Kumar	2596661K now JC440913X	20 Jul 13*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 13 without effect on pay and allces)		
Hav KMS Jahangir	2597402N now JC440914A	15 Jul 13*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 13 without effect on pay and allces)		
Hav M Muthu Raj	2600614M now JC440915H	01 Jul 13
Hav A Govinda Raj	3990960W now JC440916L	06 Jul 13
Hav Yerragorla Peddiraju	2596170N now JC440917N	29 Aug 13*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 13 without effect on pay and allces)		
Hav Korada Gunna Rao	2596334Y now JC440919Y	23 Aug 13*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 13 without effect on pay and allces)		
Hav R Ramesh	2595425W now JC440920N	05 Aug 13*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 05 Jul 13 without effect on pay and allces)		
Hav Mahanthesh Basaiah Vastrada MU	2596935K now JC440921W	02 Aug 13*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 13 without effect on pay and allces)		
Hav Surulivel G	2596202L now JC440922Y	06 Aug 13*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 13 without effect on pay and allces)		
Hav Chinnappa Ikkalaki	2596983K now JC440923F	05 Aug 13*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 13 without effect on pay and allces)		
Hav Varghese MP	2598498N now JC440925M	31 Aug 13*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 13 without effect on pay and allces)		
Hav Rangaappa Rao Chandana	2597722H now JC440918H	08 Oct 13*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 13 without effect on pay and allces)		
Hav B Antony Raja	2598238H now JC440924K	05 Nov 13*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 13 without effect on pay and allces)		
Hav C Saravanan	2596498P now JC440926P	17 Sep 13*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 27 Aug 13 without effect on pay and allces)		
Hav S Karthikeyan	2598986W now JC440927X	31 Oct 13*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 27 Aug 13 without effect on pay and allces)		
Hav Dinesh Kumar K	2597301A now JC440928A	04 Sep 13*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 13 without effect on pay and allces)		
Hav N Thirupathi Reddy	2597421Y now JC440929H	07 Sep 13*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 13 without effect on pay and allces)		

Hav Savari Muthu S	2595974W now JC440930X	03 Sep 13*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 13 without effect on pay and allces)		
Hav Prakash Neeralkatti	2598936L now JC440931A	09 Nov 13*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 13 without effect on pay and allces)		
Hav Sreejith M	2597237N now JC440932H	26 Sep 13*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 13 without effect on pay and allces)		
Hav D Gopi	2597799L now JC440933L	05 Sep 13*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 13 without effect on pay and allces)		
Hav Manoj PA	2597896H now JC440934N	04 Nov 13*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 13 without effect on pay and allces)		
Hav Ningappa Kuri	2594969Y now JC440935W	04 Oct 13*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 29 Jun 13 without effect on pay and allces)		
Hav Sajith G	2596914N now JC440936Y	15 Sep 13
Hav Srinivasa Reddy Koki	2594934H now JC440937F	02 Nov 13*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 11 Sep 13 without effect on pay and allces)		
Hav P Raghunathan	3392686L now JC440938K	18 Nov 13*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 13 Sep 13 without effect on pay and allces)		
Hav K Mariyappan	2596712M now JC440939M	20 Nov 13*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 30 Sep 13 without effect on pay and allces)		
Hav(Clk) Vasu R	2596083A now JC440940F	14 Oct 13*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 13 without effect on pay and allces)		
Hav (Clk) Manoj Kumar	1486637P now JC440941K	06 Oct 13*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 13 without effect on pay and allces)		
Hav Ganesha RM	2597343M now JC440942M	30 Oct 13*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 13 without effect on pay and allces)		
Hav Alisetty Ramesh	2596638W now JC440943P	30 Oct 13*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 13 without effect on pay and allces)		
Hav Ramakrishna MK	2596999P now JC440944X	10 Oct 13*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 13 without effect on pay and allces)		
Hav Dunna Ramakrishna Rao	2597001Y now JC440945A	10 Oct 13*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 13 without effect on pay and allces)		
Hav Siddappa Thaikaar	2596198N now JC440946H	04 Nov 13*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 13 without effect on pay and allces)		
Hav C Venkateswara Reddy	2596276A now JC440947L	12 Nov 13*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 13 without effect on pay and allces)		
Hav Kumar Swamy Bandhana	2598257N now JC440948N	02 Jan 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 25 Sep 13 without effect on pay and allces)		
Hav Anandan Valiyaparambil	2597915H now JC440949W	07 Nov 13*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 13 without effect on pay and allces)		
Hav Shivappa PD	2599460W now JC440950L	09 Oct 13*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 13 without effect on pay and allces)		
Hav Suvvari Appala Naidu	2596562F now JC440951N	23 Oct 13*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 11 Oct 13 without effect on pay and allces)		
Hav(Clk) Pallela Sreenu	2596139F now JC440952W	16 Dec 13*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 13 without effect on pay and allces)		

Hav (Clk) Tara Datt	2597451W now JC440953Y	06 Dec 13*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 13 without effect on pay and allces)		
Hav (Clk) M Vilva Kumaran	2595685F now JC440954F	02 Dec 13*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 13 without effect on pay and allces)		
Hav (Clk) Uttam Kumar Kundu	1486640P now JC440955K	18 Dec 13*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 13 without effect on pay and allces)		
Hav Mallayya Padala	13619715H now JC440956M	22 Nov 13*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 06 Sep 13 without effect on pay and allces)		
Hav Rajan R	2598509P now JC440957P	25 Jan 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 13 without effect on pay and allces)		
Hav Sundara Rajan A	2483376X now JC440958X	10 Dec 13*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 11 Oct 13 without effect on pay and allces)		
Hav Abdulla Baig	2596358H now JC440959A	01 Nov 13*
Hav K Sathiyaseelan	2595932K now JC440960P	07 Nov 13*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 13 without effect on pay and allces)		
Hav Shaik Shafi	2597334L now JC440961X	11 Nov 13*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 13 without effect on pay and allces)		
Hav Bommineni Anjaneyulu	2597439P now JC440962A	14 Nov 13*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 13 without effect on pay and allces)		
Hav Arun Kumar K	2597305W now JC440963H	06 Nov 13*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 13 without effect on pay and allces)		
Hav Anbalagan N	2596359L now JC440964L	01 Nov 13
Hav M Kumaraswamy	2597362X now JC440965N	01 Nov 13
Hav Santhosh Kumar VB	2596411H now JC440966W	11 Nov 13*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 13 without effect on pay and allces)		
Hav Jaggayya Itrajula	2596492N now JC440967Y	19 Nov 13*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 13 without effect on pay and allces)		
Hav Vijaya Kumar K	2598155X now JC440968F	01 Nov 13
Hav Pushparaj KM	2599506N now JC440969K	01 Nov 13
Hav K Saravanan	13619385P now JC440970Y	29 Nov 13*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 13 without effect on pay and allces)		
Hav T Monikandan	2599585N now JC440971F	12 Dec 13*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 10 Nov 13 without effect on pay and allces)		
Hav Gollavilli V Appa Rao	2598971N now JC440972K	11 Jan 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 12 Oct 13 without effect on pay and allces)		
Hav B Elangovan	2595454L now JC440973M	24 Dec 13*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 13 without effect on pay and allces)		
Hav Baskaran G	2597337Y now JC440974P	19 Dec 13*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 05 Nov 13 without effect on pay and allces)		
The Sikh Regiment		
To be Nb Sub		
Hav Manjeet Singh	(3393652K now JC-500814F)	30 Jul 2014
Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 14 Jun 2014 without effect on pay and allowances		

Hav	Talwinder Singh	(3393825W now JC-500815K)	20 Aug 2014
Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2014 without effect on pay and allowances			
Hav	Tejinder Singh	(3394050H now JC-500816M)	20 Aug 2014
Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2014 without effect on pay and allowances			
Hav	Swinder Singh	(3393117K now JC-500817P)	01 Jul 2014
Hav	Darshan Singh	(3393479L now JC-500818X)	01 Jul 2014
Hav	Kulwant Singh	(3393064W now JC-500819A)	21 Aug 2014
Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2014 without effect on pay and allowances			
Hav	Sukhdarshan Singh	(3393732F now JC-500820P)	01 Jul 2014
Hav	Tarlok Singh	(3393855N now JC-500821X)	01 Jul 2014
Hav	Ravinder Singh	(3394009M now JC-500822A)	01 Jul 2014
Hav	Rajiv Singh	(3394017L now JC-500823H)	01 Jul 2014
Hav	Gulzar Singh	(3398355A now JC-500824L)	01 Jul 2014
Hav	Gurdeep Singh	(3394891L now JC-500825N)	01 Jul 2014
Hav	Baljinder Singh	(3393838N now JC-500826W)	21 Aug 2014
Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2014 without effect on pay and allowances			
Hav	Kuldeep Singh	(3393580L now JC-500827Y)	19 Aug 2014
Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2014 without effect on pay and allowances			
Hav	Malkiat Singh	(3393775W now JC-500828F)	19 Aug 2014
Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2014 without effect on pay and allowances			
Hav	Arjinder Singh	(3393997L now JC-500829K)	01 Jul 2014
Hav	Nirmail Singh	(3394911N now JC-500830Y)	21 Aug 2014
Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2014 without effect on pay and allowances			

To be Nb Sub Clk (SD)

Hav Clk Satish Kumar (3395127M now JC-500831F) 29 Jun 2014
 Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 23 Jun 2014 without effect on pay and allowances

Hav Clk Vijay Kumar Shukla (3395979F now JC-500832K) 01 Jul 2014

Hav Clk Kewal Kumar (3396171H now JC-500833M) 01 Jul 2014

Hav Clk Ashok Kumar (3396213K now JC-500834P) 01 Jul 2014

Hav Clk Jatinder Singh (3396277P now JC-500835X) 01 Jul 2014

V. N. RAVEENDRAN
 Under Secretary

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद
 में मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2015
 PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
 N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2015

www.dop.nic.in